

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 164]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

का.आ. 230(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 242 (अ), तारीख 24 जनवरी 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 173/000 किमी. से 248/650 किमी. तक के भूखण्ड (सूरतगढ से श्रीगंगानगर खण्ड) का निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन प्रताप केशरी, श्रीगंगानगर तारीख 8 मार्च 2014, लोक सम्मत, श्रीगंगानगर तारीख 7 मार्च 2014 और राजस्थान पत्रिका, श्रीगंगानगर तारीख 8 मार्च 2014 में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 173/000 किमी. से 248/650 किमी. तक (सुरतगढ से श्रीगंगानगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्रीगंगा नगर	(1) सुरतगढ	(1) 3 एस जी एम	21//	1	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0044	राजस्थान सरकार
					2	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0284	राजस्थान सरकार
					10	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0010	राजस्थान सरकार
				12//	6	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.1337	राजस्थान सरकार
					7	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0607	राजस्थान सरकार
					14	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0825	राजस्थान सरकार
					13	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.1078	राजस्थान सरकार
					18	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0606	राजस्थान सरकार
					19	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0671	राजस्थान सरकार
					22	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0812	राजस्थान सरकार
				11//	9	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0003	राजस्थान सरकार
					10	केन्द्रीय कृषि फार्म	नाली दोयम	0.0546	राजस्थान सरकार
			(2) 1 एस जी एम	48//	15	निजी	बारानी	0.0010	मधुरानी पत्नि जनक राज पुत्र जगननाथ जाति अरोडा सा. सुरतगढ राहिन -स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
					16	निजी	नाली दोयम + खाला	0.2147	नसीब कौर पत्नि माला सिंह जसविन्द्र सिंह राजदेवेन्द्र सिंह पिता माला सिंह सर्वजीत कौर पुत्री माला सिंह कौम जट सिख सा.भगवानसर ब.हि.ब खातेदार
					17	निजी	नाली दोयम + खाला	0.0821	
					18	निजी	नाली दोयम + खाला	0.0014	
					23	निजी	नाली दोयम	0.1883	
					22	निजी	नाली दोयम	0.0638	नवनीत मिड्डा वल्द रूपचन्द अरोडा, अशोक कुमार, हुकम चन्द अरोडा ब.ही. ब. सा. विजय नगर खातेदार
					24	निजी	नाली दोयम	0.1788	गोरी शंकर वल्द लाधुराम कौम जाट सा. डूंगर सिंह पुरा खातेदार
					25	निजी	नाली दोयम	0.0541	
				47//	3	निजी	बारानी +गैर मुमकिन रास्ता	0.0130	रिटा देवी पत्नि राम प्रसाद अग्रवाल सा. वार्ड नं.18 सुरतगढ खातेदार।
					4	निजी	बारानी +गैर मुमकिन रास्ता	0.1617	
					5	निजी	बारानी +गैर मुमकिन रास्ता	0.0750	
					7/1	निजी	बारानी	0.1654	स्वाति देवी पत्नि पवन कुमार बाघला कौम अरोडा सा. वार्ड नं.4 सुरतगढ खातेदार
					7/2	निजी	बारानी		रिटा देवी पत्नि राम प्रसाद अग्रवाल सा. वार्ड नं.18 सुरतगढ खातेदार।
					8/1	निजी	बारानी	0.1624	
					8/2	निजी	बारानी		स्वाति देवी पत्नि पवन कुमार बाघला

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					9/1	निजी	बारानी	0.0075	कौम अरोडा सा. वार्ड नं.4 सुरतगढ खातेदार
					9/2	निजी	बारानी		रिटा देवी पत्नि राम प्रसाद अग्रवाल सा. वार्ड नं.18 सुरतगढ खातेदार।
					11	निजी	बारानी	0.0794	स्वाति देवी पत्नि पवन कुमार बाघला
					12	निजी	बारानी	0.2084	कौम अरोडा सा. वार्ड नं.4 सुरतगढ खातेदार
					13	निजी	बारानी	0.1376	
					14	निजी	बारानी	0.0027	
					19	निजी	नाली दोयम + खाला	0.0494	अनितारानी पत्नि जसराज जाति अरोडा सा. सुरतगढ खातेदार
					20	निजी	नाली दोयम + खाला	0.1805	रहन—पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा गंगानगर मुर्तहीन
				38//	6	निजी	नहरी	0.0066	नानूराम पिता नारायण पुत्र श्री नारायण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे एडीबी शाखा सुरतगढ
					15	निजी	बारानी	0.0333	
					16	निजी	बारानी	0.0996	ओम प्रकाश वल्द देसराज कौम अरोडा सा. देह खातेदार
					24/1	निजी	बारानी	0.0391	रमनदीप वल्द राधेश्याम चुघ वार्ड नं. 9 सुरतगढ खातेदार
					24/2	निजी			
					25	निजी	बारानी	0.1390	ओम प्रकाश वल्द देसराज कौम अरोडा सा. देह खातेदार
		(2) सादुलशहर	(3) 11 टी के डबलू	9//	20	सिंचाई विभाग	नहर	0.0057	राजस्थान सरकार
					21	निजी	नहरी	0.0662	लाल सिंह, हरनेक सिंह, अजयाब सिंह, पि. महंगा सिंह ब.हि.ब कौम तरखान सा. गणेशगढ खातेदार।
				12//	1	निजी	नहरी	0.0670	नक्षत्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह कौम तरखान 0.211 है. सा. डूंगरसिंहपुरा जगमोहन सिंह पुत्र बलदेव सिंह कौम तरखान है. 0.042 सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार।
					10	निजी	नहरी	0.0482	जगमोहन सिंह पुत्र बलदेव सिंह कौम तरखान 0.168 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार। स्वर्ण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह कौम तरखान 0.085 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार रहननामा स्वर्ण सिंह रहन एस.बी.बी.जे शाखा ए.डी.बी श्री गंगानगर मुर्तहीन।
					11	निजी	नहरी	0.0359	स्वर्ण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह कौम तरखान 0.253 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार रहन एस.बी.बी.जे शाखा ए.डी. बी श्री गंगानगर मुर्तहीन।
					20	निजी	नहरी	0.0160	स्वर्ण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह कौम तरखान 0.085 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार रहन एस.बी.बी.जे शाखा ए.डी. बी श्री गंगानगर मुर्तहीन। गुरमीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह कौम तरखान 0.168 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार रहन एस.बी.बी.जे बैंक शाखा डूंगरसिंहपुरा मुर्तहीन
					21	निजी	नहरी	0.0049	गुरमीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह कौम तरखान 0.253 है. सा. डूंगरसिंहपुरा खातेदार रहन—एसबीबीजे बैंक शाखा डूंगरसिंहपुरा मुर्तहीन
			(4) गणेश गढ बारानी	11//	1	निजी	बारानी	0.0177	लाल सिंह, हरनेक सिंह, जैल सिंह पि. मंगा सिंह कौम रामगढिया कौम सिख सा. गणेशगढ गैर खातेदार
					10	निजी	बारानी	0.0698	
					11	निजी	बारानी	0.0319	
				5//	1	निजी	बारानी	0.0007	पूरण सिंह वल्द ज्वाला सिंह कौम जटसिख सा. गणेशगढ खातेदार।
					10	निजी	बारानी	0.0073	
					11	निजी	बारानी	0.0212	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					20	निजी	बारानी	0.0374	
					21	निजी	बारानी	0.0430	
		(3) श्रीगंगानगर	(5) 22 एम एल	2//	1	निजी	नहरी	0.0505	सोहन सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार रहन—केनरा बैंक शाखा श्रीगंगानगर।
					10	निजी	नहरी	0.0396	
					11/1	निजी	नहरी	0.0212	मोमनराम पुत्र खेताराम कौम जाट कासनिया सा.देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा डुंगरसिंहपुरा।
					11/2	निजी	नहरी		तेजासिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार रहन—एस. बी.आई श्रीगंगानगर मुर्तहीन।
					20	निजी	नहरी	0.0062	
			(6) 21 एम एल	50//	20	निजी	नहरी	0.0172	चावली देवी पुत्री धन्नाराम जाति जाट सा. देह खातेदार।
					21	निजी	नहरी	0.0674	बन्शीराम वल्द ओम प्रकाश जाति जाट सा. देह खातेदार रहन—एसबीबीजे शाखा एडीबी श्रीगंगानगर मुर्तहीन
			(7) 7 एम एल	54//	1	निजी	नहरी	0.0097	सुलोचना देवी पत्नि प्रेम कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल सा. जवाहर नगर श्रीगंगानगर खातेदार
					10	निजी	नहरी	0.0247	
					11/1	निजी	नहरी	0.0401	मंगतुराम पुत्र चैनाराम 2/4 हिस्सा रोशनी देवी पत्नि चैनाराम 1/4 हिस्सा मंगलाराम पुत्र चैनाराम 1/4 हिस्सा सा. देह खातेदार। रहन श्रीगंगानगर क्षे. ग्रा. बैंक शाखा महियावाली
					11/2	निजी			दानाराम पुत्र खेमराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन—कार्पोरेशन बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहन फक व विभाजन
					11/3	निजी			नत्थूराम पुत्र बहादरराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन श्रीगंगानगर क्षे. ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन
					11/4	निजी			राजेन्द्र कुमार पु. बहादरराम जाति जाट सा.देह खातेदार रहन—श्रीगंगानगर क्षे.ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन
					20	निजी	नहरी	0.0537	कलावती पत्नि जोतराम रहन एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर। कालुराम खेतपाल पि.जोतराम ब.हि.ब जाति जाट बहिब 0.139 है. सा. देह खातेदार रहन—एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर रहन कालूराम व खेतपाल का।
					21	निजी	नहरी	0.0644	सुलोचना देवी पत्नि प्रेम कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल सा. जवाहर नगर श्रीगंगानगर खातेदार
				56//	1	निजी	नहरी	0.0380	औम प्रकाश वल्द हुक्मा राम 1/2 हि. इन्दराज गोपीराम व अनिल कुमार वल्द भागीरथ ब.हि.ब 1/2 हि. जाति जाट सा.महियावाली खातेदार।
				57//		सिंचाई विभाग	नहर	0.2475	राजस्थान सरकार
			(8) 1 जी छोटी	49//	10/1	निजी	नहरी + वाणिज्यक	0.0006	सुजाता देवी पत्नि रमेश चंद जाति माहेश्वरी हि. 0.058 है. सा.देह खातेदार।
					10/2	निजी	नहरी + वाणिज्यक		देवेन्द्र मित्तल एच.यू.एफ पु. के.सी मित्तल जाति अग्रवाल हि. 0.058 है. नि. गंगानगर खातेदार
					10/3	निजी	नहरी + वाणिज्यक		प्रेमलता पत्नि विनोद कुमार शारदा पत्नि दीनदयाल जाति अग्रवाल हि. 0.074 है. सा. देह खातेदार
					1	निजी	नहरी	0.0700	मधु गोयल पत्नि विजय गोयल नि. 1 ए 9 जवाहर नगर श्रीगंगानगर

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									खातेदार।
				36//	22	निजी	नहरी	0.0406	लखवीर सिंह पु. हरनेक सिंह गुरविन्द्र सिंह पु. लखवीर सिंह सा. 2 जी बड़ी खाटलबाना, 0.541 है. । जसकरण सिंह पु. शमशेर सिंह बहिब 0.0330 है. गुरसाहिब सिंह पु. जसकरण सिंह बहिब 0.331 जाति जटसिख नि. सेतिया फॉर्म श्रीगंगानगर रहननामा लखवीर सिंह व गुरविन्द्र सिंह 0.541 है. रहन—इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर
					21	निजी	नहरी	0.1371	
					20	निजी	नहरी	0.1306	
					19	निजी	नहरी	0.1959	
					18/1	निजी	नहरी	0.0068	कमलदीप पुत्री साधु सिंह गुरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह बहिब जाति सिख नि. नेतेवाला खातेदार
					18/2	निजी	नहरी		लखवीर सिंह पु. हरनेक सिंह गुरविन्द्र सिंह पु. लखवीर सिंह सा. 2 जी बड़ी खाटलबाना, 0.541 है. जसकरण सिंह पु. शमशेर सिंह बहिब 0.0330 है. गुरसाहिब सिंह पु. जसकरण सिंह बहिब 0.331 जाति जटसिख नि. सेतिया फॉर्म श्रीगंगानगर रहननामा लखवीर सिंह व गुरविन्द्र सिंह 0.541 है. रहन—इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर
					11/1	निजी	नहरी	0.0179	जडाव पत्नि सुरजाराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार
					11/2	निजी	नहरी		कमलदीप पुत्री साधु सिंह गुरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह बहिब जाति सिख नि. नेतेवाला खातेदार
					12	निजी	नहरी	0.2150	परमेश्वरी पत्नि बृजलाल, राजपाल, विनोद कुमार, पि. बृज लाल कौम . सा. नेतेवाला बहिब खातेदार रहननामा विनोद कुमार जाट 0.801 है रहन कार्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला
					13	निजी	नहरी	0.1818	
					14	निजी	नहरी	0.0173	
					7	निजी	नहरी	0.2304	
					8	निजी	नहरी	0.1964	
					9	निजी	नहरी	0.0251	
					4	निजी	नहरी	0.1000	
					3	निजी	नहरी	0.0030	
					6	निजी	नहरी	0.1112	
					5	निजी	नहरी	0.2188	
				37//	10	निजी	नहरी	0.0121	शयोप्रकाश राकेश पि. हनुमान बहिब जाति जाट सहारण सा. देह खातेदार सालम खाता राहिन—स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा उधोग विहार श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					1	निजी	नहरी	0.2375	
					2	निजी	नहरी	0.1399	
					3	निजी	नहरी	0.0330	
				19//	25	निजी	नहरी + खाला	0.0639	
					24	निजी	नहरी	0.1735	
					23	निजी	नहरी	0.2497	
					22	निजी	नहरी	0.1889	
					21	निजी	नहरी	0.0792	
					18	निजी	नहरी	0.0460	
					17	निजी	नहरी	0.1553	राम कुमार पुत्र जगमालराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन— एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					16	निजी	नहरी + खाला	0.2445	
					15	निजी	नहरी + खाला	0.0203	
				18//	20	निजी	नहरी	0.2068	
					19	निजी	नहरी	0.0975	
					18	निजी	नहरी	0.0083	शिव कुमार — संजय कुमार पि. खेतपाल जाति जाट सहारण सा.
					13	निजी	नहरी	0.2324	
					14	निजी	नहरी	0.1311	
					15	निजी	नहरी	0.0265	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									नेतेवाला बहिब खातेदार रहन शिव कुमार 5.376 है. रहनामा कॉर्पोरेशन बैंक श्रीगंगानगर
					12	निजी	नहरी	0.2263	राम कुमार पुत्र जगमालराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन— एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					11	निजी	नहरी	0.1216	
					9	निजी	नहरी	0.0050	
					8	निजी	नहरी	0.0880	
					7	निजी	नहरी	0.1977	शिव कुमार — संजय कुमार पि. खेतपाल जाति जाट सहारण सा. नेतेवाला बहिब खातेदार रहन शिव कुमार 5.376 है. रहननामा कॉर्पोरेशन बैंक श्रीगंगानगर
					6	निजी	नहरी	0.1900	
					5	निजी	नहरी + खाला	0.0544	
				17//	10	निजी	नहरी	0.1647	जयमलराम वन्द लखूराम जाति जाट सिहाग सा. नेतेवाला खातेदार सालम खाता राहिन— इलाहाबाद बैंक शाखा उदाराम चौक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					9	निजी	नहरी	0.0543	
					1	निजी	नहरी + खाला	0.1641	
					2	निजी	नहरी + खाला	0.2478	
					3	निजी	नहरी + खाला	0.1889	
					4	निजी	नहरी + खाला	0.0572	
				15//	22	निजी	नहरी	0.0292	परमेश्वरी देवी पत्नि स्व. राम सिंह कृष्णा पुत्री राम सिंह विजेन्द्र सुनिल कुमार प्रेम कुमार पि. राम सिंह बहिब जाति मेघवाल 1.594 है. सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा विजेन्द्र सुनिल पि. राम सिंह 0.637 है. रहन एसबीबीजे शाखा उ.वि. गंगानगर मुर्तहीन रहन परमेश्वरी देवी कृष्णा, प्रेम कुमार 0.956 है. एसबीबीजे उ वि शाखा श्रीगंगानगर
					23	निजी	नहरी	0.1498	
					24	निजी	नहरी	0.2150	
					25/1	निजी	नहरी	0.0760	
					25/2	निजी	नहरी + खाला		नत्थूराम बृज लाल कुम्भाराम नन्दराम मेघाराम बहादरराम हेतराम पि. मनफूलराम मनोज कुमार, अनिल पि. बृजलाल, सुनीता पुत्री बृजलाल ब.हि.ब. 0.0911 है. जाति जाट सा. 11 एलएनपी खातेदार बहिब जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा नत्थूराम नन्द लाल हेतराम रहन— कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा बृज लाल रहन— आइडीबीआई बैंक शाखा गंगानगर
					16	निजी	नहरी + खाला	0.1943	
					17/1	निजी	नहरी	0.0426	परमेश्वरी देवी पत्नि स्व. राम सिंह कृष्णा पुत्री राम सिंह विजेन्द्र सुनिल कुमार प्रेम कुमार पि. राम सिंह बहिब जाति मेघवाल 1.594 है. सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा विजेन्द्र सुनिल पि. राम सिंह 0.637 है. रहन एसबीबीजे शाखा उ.वि. गंगानगर मुर्तहीन
					17/2	निजी	नहरी		
					15	निजी	नहरी + खाला	0.0024	नत्थूराम बृज लाल कुम्भाराम नन्दराम मेघाराम बहादरराम हेतराम पि. मनफूलराम मनोज कुमार, अनिल पि. बृजलाल, सुनीता पुत्री बृजलाल ब.हि.ब. 0.911 है. जाति जाट सा. 11 एलएनपी खातेदार बहिब जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा नत्थूराम नन्द लाल हेतराम रहन— कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा बृज लाल रहन— आइडीबीआई बैंक शाखा श्रीगंगानगर
				20//	25	निजी	नहरी	0.0027	अनिता रानी पत्नि नरेश कुमार जाति

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									अरोड़ा सा. 3 पी 22 जवाहर नगर श्रीगंगानगर रहन ओबीसी बैंक श्रीगंगानगर
			(9) 5 एम एल	96//	21	निजी	बारानी	0.0200	शिव कुमार, संजय कुमार पि. खेतपाल 1.007 है० हि. बहिब श्रवण कुमार कृष्ण लाल महावीर प्रसाद पि. मनीराम जाट सहारण बहिब 2.015 है० हि. सा. नेतेवाला खातेदार
					20	निजी	बारानी	0.2294	बनवारी लाल लेखराम साजनराम पि. पेमाराम 3/4 हि. बहिब सरवन कुमार कृष्ण लाल महावीर प्रसाद पि. मनीराम 1/4 हि. बहिब जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार
					19	निजी	बारानी	0.0687	
					11	निजी	बारानी	0.1211	'शुनील कुमार पुत्र सतीस कुमार जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार
					12	निजी	बारानी	0.2470	
					13	निजी	बारानी	0.1151	रणदीप पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार
					9	निजी	बारानी	0.0697	शशीकांत पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट सा. शिवपुर फतुही, खातेदार
					8	निजी	बारानी	0.2388	शुशील कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार
					7	निजी	बारानी	0.1400	
					6/1	निजी	बारानी	0.0006	रतना वल्द तेजा जाति जाट साहरण सा. देह खातेदार
					6/2	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता		राजस्थान सरकार
					5/1	निजी	बारानी	0.1270	रतना वल्द तेजा जाति जाट साहरण सा. देह खातेदार
					5/2	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0130	राजस्थान सरकार
					4	निजी	बारानी	0.2343	रतना वल्द तेजा जाति जाट सारण सा. देह खातेदार
					3	निजी	बारानी	0.0498	
				85//	25	निजी	बारानी	0.2371	हरीराम, रामजी लाल, धौकलराम पि. सदूराम बहिब 2.562 है. रोशनी पुत्री सदूराम 0.123 है. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम बहिब 2.193 है. हि. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल लादू राम वल्द भगवानाराम 4.591 है. सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम 0.491 हि. बहिब बलवन्त सिंह अमर चंद पि. मनीराम देवी लाल, रामप्रताप, सतीश कुमार पि. रतनाराम बहिब 0.319 हि. सा. नेतेवाला लूणाराम, हनुमान पि. दानाराम बहिब 0.246 है. बृज लाल पु. दानाराम 0.245 है. जाति कुम्हार हंसराज चुन्नीराम विजय कुमार, राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम 0.337 है. अमर चंद पु. मनीराम 1.942 हि. बलवन्त पु. मनीराम 1.465 है. जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार विश्वजीत पि. धनराज 0.0168 है. जाति कुम्हार सा. 4 एम एल रहननामा—विश्वजीत 0.168 है. रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा बलवन्त 1.465 है. रहन एचडीएफसी बैंक लि. श्रीगंगानगर रहननामा अमर चंद 1.942 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक नेतेवाला रहन विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार 2.684 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 0.056 है. रहन एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा
				86//	21/1	निजी	बारानी	0.0130	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									महियावाली मुर्तहीन रहननामा रणजीत कुमार 0.056 है., राजेन्द्र कुमार 0.056 है. रहन मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा महियावाली रहननामा लाधूराम 4.591 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
					21/2	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.1188	राजस्थान सरकार
					20	निजी	बारानी	0.2402	हरीराम, रामजी लाल, धौकलराम पि. सदूराम बहिब 2.562 है. रोशनी पुत्री सदूराम 0.123 है. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम बहिब 2.193 है. हि. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल लादू राम वल्द भगवानाराम 4.591 है. सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम 0.491 हि. बहिब बलवन्त सिंह अमर चंद पि. मनीराम देवी लाल, रामप्रताप, सतीश कुमार पि. रतनाराम बहिब 0.319 हि. सा. नेतेवाला लूणाराम, हनुमान पि. दानाराम बहिब 0.246 है. बृज लाल पु. दानाराम 0.245 है. जाति कुम्हार हंसराज चुन्नीराम विजय कुमार, राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम 0.337 है. अमर चंद पु. मनीराम 1.942 हि. बलवन्त पु. मनीराम 1.465 है. जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार विश्वजीत पि. धनराज 0.0168 है. जाति कुम्हार सा. 4 एम एल रहननामा—विश्वजीत 0.168 है. रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा बलवन्त 1.465 है. रहन एचडीएफसी बैंक लि. श्रीगंगानगर रहननामा अमर चंद 1.942 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला रहन विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार 2.684 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 0.056 है. रहन एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा रणजीत कुमार 0.056 है., राजेन्द्र कुमार 0.056 है. रहन मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मनीराम रहननामा लाधूराम 4.591 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
					19	निजी	बारानी	0.1228	
					13	निजी	बारानी	0.1140	
					12	निजी	बारानी	0.2428	
					11	निजी	बारानी	0.0623	
					9	निजी	बारानी	0.0689	
					8	निजी	बारानी	0.2447	
					7	निजी	बारानी	0.1054	विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम 0.974 है. हि. सद् पु. परमा 0.973 1/2 हि. लूणाराम हनुमानराम पि. दानाराम बहिब 0.486 1/2 हि. बृज लाल पु. दानाराम 0.487 है0 जाति कुम्हार सा. 3 एमएल खातेदार रहननामा विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार 0.974 है0 रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
					5	निजी	बारानी	0.0972	
					4	निजी	बारानी	0.2460	
					3/1	निजी	बारानी	0.0758	
					3/2	निजी	बारानी		हरीराम, रामजी लाल, धौकलराम पि. सदूराम बहिब 2.562 है. रोशनी पुत्री सदूराम 0.123 है. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम बहिब 2.193 है. हि. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल लादू राम वल्द भगवानाराम 4.591 है. सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम 0.491 हि. बहिब बलवन्त सिंह

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									अमर चंद पि. मनीराम देवी लाल, रामप्रताप, सतीश कुमार पि. रतनाराम बहिब 0.319 हि. सा. नेतेवाला लूणाराम, हनुमान पि. दानाराम बहिब 0.246 है. बृज लाल पु. दानाराम 0.245 है. जाति कुम्हार हंसराज चुन्नीराम विजय कुमार, राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम 0.337 है. अमर चंद पु. मनीराम 1.942 हि. बलवन्त पु. मनीराम 1.465 है. जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार विश्वजीत पि. धनराज 0.0168 है. जाति कुम्हार सा. 4 एम एल रहननामा—विश्वजीत 0.168 है. रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा बलवन्त 1.465 है. रहन एचडीएफसी बैंक लि. श्रीगंगानगर रहननामा अमर चंद 1.942 है. रहन कॉरपोरेशन बैंक नेतेवाला रहन विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार 2.684 है. रहन कॉरपोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 0.056 है. रहन एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा रणजीत कुमार 0.056 है., राजेन्द्र कुमार 0.056 है. रहन मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा महियावाली रहननामा लाधूराम 4.591 है. रहन कॉरपोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
				72//	25	निजी	बारानी	0.2466	गुरदयाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार सा. 3 एम एल खातेदार
					24	निजी	बारानी	0.0831	हरीराम, रामजी लाल, धौकलराम पि. सदूराम बहिब 2.562 है. रोशनी पुत्री सदूराम 0.123 है. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम बहिब 2.193 है. हि. जाति कुम्हार सा. 3 एम एल लादूराम वल्द भगवानाराम 4.591 है. सा. 3 एम एल विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार पि. लादूराम 0.491 हि. बहिब बलवन्त सिंह अमर चंद पि. मनीराम देवी लाल, रामप्रताप, सतीश कुमार पि. रतनाराम बहिब 0.319 हि. सा. नेतेवाला लूणाराम, हनुमान पि. दानाराम बहिब 0.246 है. बृज लाल पु. दानाराम 0.245 है. जाति कुम्हार हंसराज चुन्नीराम विजय कुमार, राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम 0.337 है. अमर चंद पु. मनीराम 1.942 हि. बलवन्त पु. मनीराम 1.465 है. जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार विश्वजीत पि. धनराज 0.0168 है. जाति कुम्हार सा. 4 एम एल रहननामा—विश्वजीत 0.168 है. रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा बलवन्त 1.465 है. रहन एचडीएफसी बैंक लि. श्रीगंगानगर रहननामा अमर चंद 1.942 है. रहन कॉरपोरेशन बैंक नेतेवाला मुर्तहीन रहन विनोद कुमार जितेन्द्र कुमार 2.684 है. रहन कॉरपोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 0.056 है. रहन एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा रणजीत कुमार 0.056 है., राजेन्द्र कुमार

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									0.056 रहन मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा महियावाली रहननामा लाधूराम 4.591 है. रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
					16	निजी	बारानी	0.0906	गुरदयाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार सा. 3 एम एल खातेदार
				71//	21	निजी	बारानी	0.0894	चेतराम पु. हनुमान जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा उ. वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					20	निजी	बारानी	0.2466	गुरदयाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार सा. 3 एम एल खातेदार
					19	निजी	बारानी	0.0818	
					13	निजी	बारानी	0.0746	मेघाराम दलीप चन्द पि. मन्शाराम बहिब जाति कुम्हार सा. 5 एमएल खातेदार रहन— दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. चक गणेशगढ मुर्तहीन
					12	निजी	बारानी	0.2459	गुरदयाल पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार सा. 3 एम एल खातेदार
					11	निजी	बारानी	0.0986	
					9	निजी	बारानी	0.1068	
					8	निजी	बारानी	0.2445	मेघाराम दलीप चन्द पि. मन्शाराम बहिब जाति कुम्हार सा. 5 एमएल खातेदार रहन— दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. चक गणेशगढ मुर्तहीन
					7	निजी	बारानी	0.0678	
					5	निजी	बारानी + खाला	0.0612	
					4	निजी	नहरी + बारानी + खाला	0.2424	
					3	निजी	नहरी + खाला	0.1154	
				62//	25	निजी	नहरी	0.2280	रमेश लाल 3.794 है. सुरेश कुमार 1.011 है. पि. तारा चंद सुमित्रा देवी पत्नि तारा चंद 0.430 है. जाति अरोडा नि. 27 जीजी विजयकुमार पुत्र बस्तीराम जाति कुम्हार नि. 4 एम एल 0.506 है. गुलाब देवी पत्नी रामकुमार 0.868 है. शीला देवीपत्नी पोलाराम 0.869 है. राजबाला पत्नी राजेश कुमार 0.868 है. रणदीपसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जयदीप पुत्र अमीचंद 1.618 है. देवीलाल बनबारी लाल सतीश कुमार रामप्रताप पिता रत्नाराम ब.हि.ब. 0.114 है. जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार जमनादेवी पत्नी गोविन्द प्रकाश जाति अरोडा 0.632 है. सा. 72 सी प्रेम नगर इन्द्रजीत पुत्र अमीलाल जाति बिश्नोई 0.126 है 0 सा. 8 बी 16 जवाहर नगर किशन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति 0.506 है. अग्रवाल सा. 2 ए 8 जवाहरनगर,
					24	निजी	नहरी	0.1243	
					16	निजी	नहरी	0.1333	
					15	निजी	नहरी	0.0002	
				63//	21	निजी	नहरी	0.0550	जयदीप पुत्र अमर चंद 3.794 है. बलवन्त 2.238 है. पि. मनीराम रणदीप सिंह पु. बलवन्त सिंह जयदीप पु. अमर चंद अनामिका पुत्री ओम प्रकाश बहिब 4.016 है. जाति जाट सा. देह खातेदार रहननामा जयदीप 5.147 है. रहन—कॉर्पोरेशन बैंक शाख नेतेवाला
					20	निजी	नहरी	0.2366	
					19	निजी	नहरी	0.0491	
					13	निजी	नहरी	0.0436	
					12	निजी	नहरी	0.2332	
					11	निजी	नहरी	0.1420	
					9	निजी	नहरी	0.1504	बलवन्त सिंह वल्द मनीराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा बलवन्त सिंह रहन—एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					10/1	निजी	नहरी	0.0008	जयदीप पुत्र अमर चंद 3.794 है. बलवन्त 2.238 है. पि. मनीराम रणदीप सिंह पु. बलवन्त सिंह जयदीप पु. अमर चंद अनामिका पुत्री ओम प्रकाश बहिब 4.016 है. जाति जाट सा. देह

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									खातेदार रहननामा जयदीप 5.147 है. रहन-कॉर्पोरेशन बैंक शाख नेतेवाला
					10/2	निजी			बलवन्त सिंह वल्द मनीराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा बलवन्त सिंह रहन-एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					8	निजी	नहरी	0.2294	
					7	निजी	नहरी	0.0384	जयदीप पुत्र अमर चंद 3.794 है. बलवन्त 2.238 है. पि. मनीराम रणदीप सिंह पु. बलवन्त सिंह जयदीप पु. अमर चंद अनामिका पुत्री ओम प्रकाश बहिव 4.016 है. जाति जाट सा. देह खातेदार रहननामा जयदीप 5.147 है. रहन-कॉर्पोरेशन बैंक शाख नेतेवाला
					5	निजी	नहरी + खाला	0.0335	राजेन्द्र कुमार 0.006 है. हि. पु. हरिराम कौशल्या देवी पुत्री हरीराम 0.296 है. सतीश कुमार वल्द रतनाराम 0.253 है. हि. अमर चंद वल्द मनीराम 1.393 है. हि. जाति जाट सा. नेतेवाला हरभजन सिंह पु. करतार सिंह व हरप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख नि. 1 ए छोटी बलवन्त सिंह की ढाणी श्रीगंगानगर 0.379 है. हि. खातेदार रहननामा अमर चंद 1.393 है. रहन-कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला
					4	निजी	नहरी	0.2253	जयदीप पुत्र अमर चंद 3.794 है. बलवन्त 2.238 है. पि. मनीराम रणदीप सिंह पु. बलवन्त सिंह जयदीप पु. अमर चंद अनामिका पुत्री ओम प्रकाश बहिव 4.016 है. जाति जाट सा. देह खातेदार रहननामा अमर चंद 3.794 रहन-रहननामा जयदीप 5.147 है. रहन-कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला
					3	निजी	नहरी	0.1585	बलवन्त सिंह वल्द मनीराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा बलवन्त सिंह रहन-एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					2	निजी	नहरी	0.0017	
				46//	25	निजी	नहरी	0.2208	राजेन्द्र कुमार 0.006 है0 हि. पु. हरीराम कौशल्या देवी पुत्री हरिराम 0.296 है0 हि. सतीश कुमार वल्द रतनाराम 0.253 है0 हि. अमर चंद वल्द मनीराम 1.393 है0 हि. जाति जाट सा. नेतेवाला हरभजन सिंह पु. करतार सिंह व हरप्रीत सिंह पु. गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 1 ए छोटी बलवन्त सिंह की ढाणी श्रीगंगानगर 0.379 हि. खातेदार रहननामा अमर चंद 1.393 है0 रहन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला
					24	निजी	नहरी	0.1663	बलवन्त सिंह वल्द मनीराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा बलवन्त सिंह रहन-एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					23	निजी	नहरी	0.0030	
					16	निजी	नहरी	0.1737	राजेन्द्र कुमार 0.006 है0 हि. पु. हरीराम कौशल्या देवी पुत्री हरिराम 0.296 है0 हि. सतीश कुमार वल्द रतनाराम 0.253 है0 हि. अमर चंद वल्द मनीराम 1.393 है0 हि. जाति जाट सा. नेतेवाला हरभजन सिंह पु. करतार सिंह व हरप्रीत सिंह पु. गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 1 ए छोटी बलवन्त सिंह की ढाणी श्रीगंगानगर 0.379 हि. खातेदार रहननामा अमर चंद 1.393 है0 रहन कॉर्पोरेशन बैंक नेतेवाला
					15	निजी	नहरी	0.0065	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					17	निजी	नहरी	0.0046	बलवन्त सिंह वल्द मनीराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा बलवन्त सिंह रहन—एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन
				45//	21/1	निजी	नहरी	0.0289	राजेन्द्र कुमार 0.006 है. हि. पु. हरिराम कोशल्या देवी पुत्री हरीराम 0.296 है. सतीश कुमार वल्द रतनाराम 0.253 है. हि. अमर चंद वल्द मनीराम 1.393 है. हि. जाति जाट सा. नेतेवाला हरभजन सिंह पु. करतार सिंह व हरप्रित सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख नि. 1 ए छोटी बलवन्त सिंह की ढाणी श्रीगंगानगर 0.379 है. हि. खातेदार रहननामा अमर चंद 1.393 है. रहन—कोरपोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला
					21/2	निजी			शमशेर रविन्द्र पि. इन्द्रराज व इन्द्रराज पु. खरताराम जाति जाट सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा शमशेर 1/3 हि. रहन—बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला मुर्तहीन रहननामा इन्द्रराज रहन 3.971 है., रवीन्द्र 3.971 है. —कोरपोरेशन बैंक शाखा नेतेवाला मुर्तहीन
					20	निजी	नहरी	0.2161	बलदेव सिंह संतोख सिंह पि. करतार सिंह बहिब जाति कम्बोसिख सा. 1 ए छोटी खातेदार रहननामा संतोख सिंह रहन—एसबीबीजे कृ. वि. शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा बलदेव सिंह रहन—पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					19	निजी	नहरी	0.0247	
					13	निजी	नहरी	0.0208	देवी लाल, भानी राम, चुन्नी लाल पि. भोलू राम बहिब 3.250 है. हि. रामेश्वरी पत्नि भोलू राम 0.734 है. हि. ता जिन्दगी खर्चा गुजारा जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 1.053 है. हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नी लाल 1.083 है. रहन—एसबीबीजे शाखा कृ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					12	निजी	नहरी	0.2109	
					11	निजी	नहरी	0.1808	
					10	निजी	नहरी	0.0830	
					9	निजी	नहरी	0.1875	
					8	निजी	नहरी	0.2055	
					7	निजी	नहरी	0.0173	
					5	निजी	नहरी + खाला	0.0140	
					4	निजी	नहरी	0.1997	
					3	निजी	नहरी	0.1939	
					2	निजी	नहरी	0.0113	
				38//	25	निजी	नहरी	0.1936	देवी लाल, भानी राम, चुन्नी लाल पि. भोलू राम बहिब 3.250 है. हि. रामेश्वरी पत्नि भोलू राम 0.734 है. हि. ता जिन्दगी खर्चा गुजारा जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 1.053 है. हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नी लाल 1.083 है. रहन—एसबीबीजे शाखा कृ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					24	निजी	नहरी	0.2000	
					23	निजी	नहरी	0.0142	
					17/1	निजी	नहरी	0.0174	लाल चंद वल्द खीराराम जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहन—इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर
					17/2	निजी			
					16	निजी	नहरी	0.2058	देवी लाल, भानी राम, चुन्नी लाल पि. भोलू राम बहिब 3.250 है. हि. रामेश्वरी पत्नि भोलू राम 0.734 है. हि. ता जिन्दगी खर्चा गुजारा जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 1.053 है. हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
					15/1	निजी	नहरी	0.0210	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नी लाल 1.083 है. रहन— एसबीबीजे शाखा कृ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					15/2	निजी			लाल चंद वल्द खीयाराम जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहन—इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर
				39//	21	निजी	नहरी	0.0112	गुरदीप सिंह वल्द करतार सिंह 2.276 है. हि. बलदेव सिंह, सन्तोख सिंह पि. करतार सिंह 1.543 है. हि. जाति कम्बोसिख सा. गंगानगर बादु देवी माता तारा चंद 0.126 है. हि. विजय कुमार कृष्ण कुमार पि. तारा चंद बहिब 0.506 है. हि.दुली चंद 0.620 है. हि. पु. जयमलराम आत्माराम 0.620 है. हि. रामस्वरूप 0.632 है. हि. पि. जीवनराम सुभाष 0.557 है. हि. , दीवान चंद 0.556 है. हि. पि. देवी लाल कौम कुम्हार सा. 3 एमएल हंसराज चुन्नी राम विजय कुमार राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्ती राम बहिब 0.105 है. विश्वजीत सिंह पु. धनराज 0.063 है. जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खातेदार रहननामा सुभाष चंद दीवान चंद पि. देवी लाल आत्मा राम रामस्वरूप रहन श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खयालीराम मुर्तहीन रहननामा बलदेव सिंह रहन—पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा दुली चंद, विजय कुमार एसबीबीजे शाखा उ वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा सन्तोख सिंह रहन—एसबीबीजे कृ. वि शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा कृष्ण कुमार 0.253 है. रहन—एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह विश्वजीत सिंह रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा रणजीत कुमार 0.0210 है0 रहन—मरुधरा ग्रा. बैंक शाखा महियावाली रहनामा गुरदीप सिंह 2.276 है. एसबीबीजे कृ.वि.शाखा श्रीगंगानगर
					20	निजी	नहरी	0.1872	देवी लाल भानीराम चुन्नी लाल पि. भोलूराम बहिब जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 0.647 है0 हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा देवी लाल 0.647 है0 हि. रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नीलाल 0.646 है0 हि. रहन—एसबीबीजे कृ.पि. शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					19	निजी	नहरी	0.0086	
					13	निजी	नहरी	0.0064	
					12	निजी	नहरी	0.1804	
					11	निजी	नहरी	0.1770	
					10	निजी	नहरी	0.0249	सुल्तानराम पु. जवानराम जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					9	निजी	नहरी	0.1640	देवी लाल भानीराम चुन्नी लाल पि. भोलूराम बहिब जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 0.647 है0 हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा देवी लाल 0.647 है0 हि. रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नीलाल
					8	निजी	नहरी	0.1733	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों /हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									0.646 है० हि. रहन-एसबीबीजे कृ.पि. शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					7	निजी	नहरी	0.0045	सुल्तानराम पु. जवानराम जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहन-एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					5	निजी	नहरी	0.0029	
					4	निजी	नहरी	0.1659	
					3	निजी	नहरी	0.1260	देवी लाल भानीराम चुन्नी लाल पि. भोलूराम बहिब जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहननामा भानीराम 0.647 है० हि. रहन-श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा देवी लाल 0.647 है० हि. रहन-एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा चुन्नीलाल 0.646 है० हि. रहन-एसबीबीजे कृ.पि. शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					2	निजी	नहरी	0.0291	सुल्तानराम पु. जवानराम जाति कुम्हार सा. नेतेवाला खातेदार रहन-एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन
				18//	25	निजी	नहरी	0.1581	गंगाधर 0.6495 है. दौलतराम 0.5846 सूरजभान 0.5846 है. पि. रामचन्द्र सत्यवान 2.529 है. हि० कृष्ण 1.265 है० हि. बलराम 1.265 है० हि. पि. गंगाधर सुल्तान वल्द जवानाराम 0.506 है० हि. जाति कुम्हार सा. नेतेवाला बृज लाल 0.032 है० बनवारी लाल गोपी राम 0.044 है० पि. शेरा बहिब अमर सिंह 1.252 है० हि. राजेन्द्र कुमार 1.240 है० हि. रणजीत कुमार 1.240 है० हि. बस्तीराम हंसराज विजय कुमार राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम विश्वजीत पु. धनराज 1.205 है० रविशंकर पुत्र बलराम 1.265 है जाति कुम्हार खातेदार, बलदेवराम पुत्र बस्तीराम 1.720 है.जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खातेदार रहननामा सत्यवान 2.529 है० आरएमजीबी बैंक 4 एमएल हि. बलराम 1.265 है० हि. कृष्ण 1.265 है० राजेन्द्र कुमार 1.541 है० रणजीत कुमार 1.541 है० हि. रहन-श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा सुल्तान 0.506 है० हि. रहन-एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 1.553 है० विश्वजीत 1.205 है० रहन-एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली हंसराज 0.301 है० रहन-एसबीबीजे उ.वि. शाखा श्रीगंगानगर रहन रविशंकर 1.265 है. आरएमजीबी बैंक शाखा महियावाली
					24	निजी	नहरी	0.1260	
					23	निजी	नहरी	0.0337	
					17	निजी	नहरी	0.0386	
					16	निजी	नहरी	0.0880	
					15	निजी	नहरी	0.0438	
				17//	21	निजी	नहरी + खाला	0.0010	
					20	निजी	नहरी + खाला	0.1501	गंगाधर 0.6495 है. दौलतराम 0.5846 सूरजभान 0.5846 है. पि. रामचन्द्र सत्यवान 2.529 है. हि० कृष्ण 1.265 है० हि. बलराम 1.265 है० हि. पि. गंगाधर सुल्तान वल्द जवानाराम 0.506 है० हि. जाति कुम्हार सा. नेतेवाला बृज लाल 0.032 है० बनवारी लाल गोपी राम 0.044 है० पि. शेरा बहिब अमर सिंह 1.252 है० हि. राजेन्द्र कुमार 1.240 है० हि. रणजीत कुमार 1.240 है० हि. बस्तीराम हंसराज विजय कुमार राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम विश्वजीत पु. धनराज 1.205 है० रविशंकर पुत्र बलराम 1.265 है जाति कुम्हार खातेदार, बलदेवराम पुत्र बस्तीराम 1.720 है.जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खातेदार रहननामा सत्यवान 2.529 है० आरएमजीबी बैंक 4 एमएल हि. बलराम 1.265 है० हि. कृष्ण 1.265 है० राजेन्द्र कुमार 1.541 है० रणजीत कुमार 1.541 है० हि. रहन-श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा सुल्तान 0.506 है० हि. रहन-एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 1.553 है० विश्वजीत 1.205 है० रहन-एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली हंसराज 0.301 है० रहन-एसबीबीजे उ.वि. शाखा श्रीगंगानगर रहन रविशंकर 1.265 है. आरएमजीबी बैंक शाखा महियावाली
					19	निजी	नहरी	0.0008	
					13	निजी	बारानी	0.0002	
					12	निजी	नहरी	0.1416	
					11	निजी	नहरी + खाला	0.0760	
					10	निजी	नहरी + खाला	0.0494	
					9/1	निजी	बारानी	0.0630	
					9/2	निजी	नहरी		0.1329
					8	निजी	बारानी		
					4	निजी	बारानी + खाला	0.1239	जसविन्द्र सिंह हरपाल सिंह अरविन्द्र सिंह पि. जसवन्त सिंह जाति कम्बोसिख सा. 1 ए छोटी बहिब खातेदार
					3/1	निजी	नहरी + खाला	0.2399	गंगाधर 0.6495 है. दौलतराम 0.5846 सूरजभान 0.5846 है. पि. रामचन्द्र सत्यवान 2.529 है. हि० कृष्ण 1.265 है० हि. बलराम 1.265 है० हि. पि. गंगाधर सुल्तान वल्द जवानाराम 0.506 है० हि. जाति कुम्हार सा. नेतेवाला बृज लाल 0.032 है० हि. पि. शेरा बनवारी लाल गोपी राम 0.044 है० हि. बहिब अमर सिंह 1.252 है० हि. राजेन्द्र कुमार
					3/2	निजी	बारानी		
					2	निजी	नहरी + खाला	0.0553	गंगाधर 0.6495 है. दौलतराम 0.5846 सूरजभान 0.5846 है. पि. रामचन्द्र सत्यवान 2.529 है. हि० कृष्ण 1.265 है० हि. बलराम 1.265 है० हि. पि. गंगाधर सुल्तान वल्द जवानाराम 0.506 है० हि. जाति कुम्हार सा. नेतेवाला बृज लाल 0.032 है० हि. पि. शेरा बनवारी लाल गोपी राम 0.044 है० हि. बहिब अमर सिंह 1.252 है० हि. राजेन्द्र कुमार

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									1.240 है० हि. रणजीत कुमार 1.240 है० हि. बस्तीराम हंसराज विजय कुमार राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम विश्वजीत पु. धनराज 1.205 है० रवि शंकर पुत्र बलराम 1.265 है. जाति कुम्हार खातेदार, बलदेव पुत्र बस्तीराम 1.720 है. जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खतेदार रहननामा सत्यवान 2.529 है० हि. आरएमजीबी बैंक शाखा 4 एमएल बलराम 1.265 है० हि. कृष्ण 1.265 है० राजेन्द्र कुमार 1.541 है० रणजीत कुमार 1.541 है० हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहन रविशंकर 1.265 है. आरएमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली रहननामा सुल्तान 0.506 है० हि. रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 1.553 है० विश्वजीत 1.205 है० रहन—एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली रहननामा हंसराज 0.301 है० रहन—एसबीबीजे उ.वि. शाखा श्रीगंगानगर
				12//	25	निजी	बारानी	0.1150	जसविन्द्र सिंह हरपाल सिंह अरविन्द्र सिंह पि. जसवन्त सिंह जाति कम्बोसिख सा. 1 ए छोटी बहिब खातेदार
					24	निजी	नहरी + बारानी	0.0750	
					24/2	निजी	नहरी		गंगाधर 0.6495 है. दौलतराम 0.5846 सूरजभान 0.5846 है. पि. रामचन्द्र सत्यवान 2.529 है. हि० कृष्ण 1.265 है० हि. बलराम 1.265 है० हि. पि. गंगाधर सुल्तान वल्द जवानाराम 0.506 है० हि. जाति कुम्हार सा. नेतेवाला बृज लाल 0.032 है० बनवारी लाल गोपी राम 0.044 है० पि. शोरा हि. बहिब अमर सिंह 1.252 है० हि. राजेन्द्र कुमार 1.240 है० हि. रणजीत कुमार 1.240 है० हि. बस्तीराम हंसराज विजय कुमार राजेन्द्र कुमार रणजीत कुमार अमर सिंह पि. बस्तीराम विश्वजीत पु. धनराज 1.205 है० रविशंकर पुत्र बलराम 1.265 है. जाति कुम्हार खातेदार, बलदेव राज पुत्र बसती राम 1.720 है. जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खातेदार रहननामा सत्यवान 2.529 है० आरएमजीबी बैंक महियावाली हि. बलराम 1.265 है० हि. कृष्ण 1.265 है० राजेन्द्र कुमार 1.541 है० रणजीत कुमार 1.541 है० हि. रहन—श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली मुर्तहीन रहननामा सुल्तान 0.506 है० हि. रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा अमर सिंह 1.553 है० विश्वजीत 1.205 है० रहन—एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा महियावाली रहननामा हंसराज 0.301 है० रहन—एसबीबीजे उ.वि. शाखा श्रीगंगानगर रहन रविशंकर 1.265 है. आरएमजीबी बैंक महियावाली
					23	निजी	नहरी	0.0615	जसविन्द्र सिंह हरपाल सिंह अरविन्द्र सिंह पि. जसवन्त सिंह जाति कम्बोसिख सा. 1 ए छोटी बहिब
					17	निजी	नहरी	0.0681	
					16	निजी	बारानी	0.0760	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					15	निजी	नहरी	0.0750	खातेदार
				13//	20	निजी	बारानी	0.1064	गंगाधर पुत्र राम चंद सा. 6 ई छोटी 0.266 है० हि. हरकोरी पत्नि नन्दराम
					12	निजी	बारानी	0.0982	रामप्रताप पन्ना लाल सीताराम
					11	निजी	बारानी	0.1140	रामस्वरूप ओम प्रकाश पि. नन्दराम
					10	निजी	बारानी	0.0822	कमला इन्द्रा चुकला पुत्रियां नन्दराम
					9	निजी	बारानी	0.1390	बहिब 2.079 है० धनराज, हंसराज,
					8	निजी	बारानी	0.0903	रघुवीर सिंह पि. गोविन्दराम बहिब 1.720 है. खातेदार निर्मला पुत्री संतकला
					4/1	निजी	बारानी	0.0630	ओम प्रकाश पु. संतकला पुत्री
					4/2	निजी			गोविन्दराम बहिब 0.297 है० कौम
					3	निजी	बारानी	0.1770	कुम्हार सा. देह खातेदार हजारीराम
					2	निजी	बारानी	0.0897	रामेश्वर लाल रामचंद पि. तनसुखराम बहिब 2.080 है० फूलावन्ती पत्नि रामचंद 3.587 है० मोहरां देवी पत्नि श्योकराम 0.430 है० पारा देवी पत्नि भादरराम 0.430 है० जाति कुम्हार जसविन्द्र सिंह हरपाल सिंह अरविन्द्र सिंह पि. जसवन्त सिंह 4.132 है० जाति कम्बोसिख सा. 1 ए छोटी खातेदार रहननामा फूलावन्ती 3.587 है० रहन—यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहननामा रामचंद 1.040 है० रहन—एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन, रहननामा धनराज 0.594 है. रहन राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा 4 एमएल
			(10) 4 एम एल	60//	25/1	निजी	नहरी	0.0510	फुलवन्ती पत्नि रामचन्द्र जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					24	निजी	नहरी	0.1900	कृष्ण कुमार वल्द रुपराम जाति कुम्हार
					23	निजी	नहरी	0.0976	सा. देह खातेदार रहन— एसबीबीजे
					17	निजी	नहरी	0.1058	शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					16	निजी	नहरी	0.2020	मुर्तहीन
					15	निजी	नहरी	0.1144	रामेश्वर वल्द रुपराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन— एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार गंगानगर मुर्तहीन
				59//	20	निजी	नहरी	0.0510	फुलवन्ती पत्नि रामचन्द्र जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					12	निजी	नहरी	0.0620	काशीराम 0.046 है० हरीराम 1.943 है० पि. प्रभूराम गिरधारी लाल विजय सिंह संदीप कुमार पि. राजाराम सुशीला पुत्री राजाराम हर चार बहिब 0.341 है० जाति नाई किशन चंद पु. श्यामाराम 1.602 है० जाति बजाज सा. कालियां शिमला देवी उर्फ सीमा देवी पत्नि राजाराम 0.582 है० जाति जाट जी.एच एस्टेट्स प्रा.लि. श्रीगंगानगर जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पु. सूरजभान जाति अग्रवाल सा. संगरिया हनुमानगढ 1.898 है० खातेदार
					11	निजी	नहरी	0.2280	संताराम जयचंद रामजी लाल पुत्र बट्टी प्रसाद जाति कुम्हार हि ब हि खातेदार सा. देह
					10	निजी	नहरी	0.1233	कृष्ण कुमार वल्द रुपराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन— एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					9/1	निजी	नहरी	0.1260	सुभाष पु. साहबराम जाति जाट सा. 1 जी छोटी खातेदार रहन— एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					8	निजी	नहरी	0.0557	ए. एच डब्लुपर्स प्रा.लि. जरिये

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									डायरेक्टर बिमला देवी शाह पुत्री बिहारी लाल जाति अग्रवाल सा. 3 आई 9 जवाहर नगर श्रीगंगानगर खातेदार
					4	निजी	नहरी + खाला	0.0498	हीरा देवी फौत-सहीराम चानणराम रामप्रताप लक्ष्मीचंद रामकुमार कृष्ण लाल पि.जय लाल बहिब 0.0695 है0 संतरा देवी विमला देवी पुत्रियां जय लाल बहिब 0.0025 है0 जाति कुम्हार भैराराम जगन लाल पि. मेघराज बहिब 0.072 है0 शेरमल उर्फ शेरा वल्द काशीराम 0.071 है0 व बीरबल वल्द काशीराम 0.071 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					3/1	निजी	नहरी+खाला	0.2370	सरबती देवी पत्नि बलवन्तराम 1.180 है0 हि. मैना देवी पत्नि बलराम 1.180 है0 हि. बलराम वल्द मनफूल 1.180 है0 हि. जाति जाट मनफूल 0.063 है0 हि. पि. भागीराम जैसाराम 0.047 है0 हि. खेतपाल 0.256 है0 पि. जगमाल जाति जाट पि. हजारी मोमनराम 0.063 है0 हि. पि. बीझाराम श्योकरण 0.032 है0 हि. पि. बस्तीराम मनफूल 0.253 है0 हि. पालीराम 0.126 हि. पि. खेतपाल कौम जाट सा. देह खातेदार बादूदेवी पत्नि मनफूल, राजपाल,संदीप पी मनफूल व सीमादेवी पुत्री मनफूल ब.हि.ब. 0.063 है. मूर्ति देवी पत्नि जगराम बलावत राम, पापूराम पी. जगराम सुखीदेवी पुत्र जगराम ब.हि.ब. 0.063 है. बादूदेवी पत्नि मनफूल, राजपाल, संदीप, पी मनफूल 0.021 है. संतरोदेवी, गुडडी देवी पुत्रियां भानीराम 0.042 है. गोमती देवी पत्नि तनसुख, पृथ्वीराज धनराज पी. तनसुख व सुमित्रा देवी पुत्री तनसुख 0.031 है. हरदेवी पत्नि सुल्तान इन्द्रमुखी, राजमुखी पुत्रिया सुल्तान ब.हि.ब. 0.0472 है. शारदा देवी पत्नि मनोज कुमार नितिन पुत्र मनोज कुमार मीनाक्षी, जयलक्ष्मी पुत्रियां मनोज कुमार ब.हि.ब 0.0158 है. मैनादेवी पत्नि नत्थुराम सुशीला देवी नीरू पुत्रिया नत्थुराम ब.हि.ब 0.063 है.
					3/2	निजी	नहरी		हीरा देवी फौत-सहीराम चानणराम रामप्रताप लक्ष्मीचंद रामकुमार कृष्ण लाल पि.जय लाल बहिब 0.0695 है0 संतरो देवी विमला देवी पुत्रियां जय लाल बहिब 0.0025 है0 जाति कुम्हार भैराराम जगन लाल पि. मेघराज बहिब 0.072 है0 शेरमल उर्फ शेरा वल्द काशीराम 0.071 है0 व बीरबल वल्द काशीराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					2	निजी	नहरी + खाला	0.1323	सुभाष पु. साहबराम जाति जाट सा. 1 जी छोटी खातेदार रहन- एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
				56//	25	निजी	नहरी	0.0380	कृषि के लिये उपलब्ध भूमियां काबिलकास्त न्यायालय आदेश नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर
					24	निजी	नहरी	0.2336	मनीराम जेठाराम पूर्ण चंद हरिराम पि.
					23/1	निजी	गैर मुमकिन	0.1410	हनुमान बहिब जाति कुम्हार सा.

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					23/2	निजी	ढाणी		3एमएल गैर खातेदार
					18	निजी	नहरी	0.0007	
					17	निजी	नहरी	0.1495	
					16	निजी	नहरी	0.1640	
					15	निजी	नहरी	0.1571	
					14	निजी	नहरी	0.0016	
					6	निजी	नहरी	0.0027	
				57//	1	निजी	नहरी	0.0025	राजपाल संदीप कुमार पि. मनफूल जाति जाट सा. देह बहिब 12.134 है० मीरा पत्नि भानीराम 0.025 है० खातेदार रहन— बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला मुर्तहीन
					2	निजी	नहरी	0.0380	हंसराज बहादर वल्द नारायण महाजन सा. श्रीगंगानगर 0.102 है० हि. पन्नाराम वल्द आसाराम 0.038 है० हि. जाति जाट सा. देह खातेदार
					11	निजी	नहरी	0.0380	
					10/1	निजी	नहरी	0.1623	राजपाल संदीप कुमार पि. मनफूल जाति जाट सा. देह बहिब 12.134 है० मीरा पत्नि भानीराम 0.025 है० खातेदार रहन— बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला मुर्तहीन
					10/2	निजी			जैसाराम पुत्र जगमालराम जाट सा. 4 एमएल
					10/3	निजी			हंसराज बहादर वल्द नारायण महाजन सा. श्रीगंगानगर 0.102 है० हि. पन्नाराम वल्द आसाराम 0.038 है० हि. जाति जाट सा. देह खातेदार
					20	सिंचाई विभाग	नहर	0.0390	राजस्थान सरकार
					9	सिंचाई विभाग	नहर	0.2269	
			(11) 3 एम एल	45//	23	सिंचाई विभाग	नहर	0.1097	राजस्थान सरकार
			(12) 17 एम एल	34//	12	निजी	बारानी	0.0120	रामेश्वरी पुत्री केसर जाति नायक सा. देह खातेदार 0.012 है.
					8/1	निजी	बारानी	0.0444	चानरराम पुत्र मंगलचन्द जाति वाल्मिकी नि. घमूडवाली तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 0.0126 है.
					8/2	निजी			
					4/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0250	राजस्थान सरकार
					4/2	निजी	गैर मुमकिन आवासीय + बारानी	0.0510	रिछपाल पुत्र कानाराम जाति नायक 0.050 है. नि. 3ई छोटी श्रीगंगानगर खातेदार, चाणनराम पुत्र मंगलचन्द जाति वाल्मिकी 0.072 है. नि. घमूडवाली तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर खातेदार, तीजां पुत्री केसर जाति नायक 0.093 है. सा.देह खातेदार
					3	निजी	बारानी	0.0130	चाणनराम पुत्र मंगलचन्द जाति वाल्मिकी नि. घमूडवाली तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर खातेदार
				16//	25	निजी	नहरी	0.1397	जसराम पुत्र राम चंद जाति कुमार किला नं. 24 0.025 है. बलदेव सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पु. श्रवण सिंह 0.1010 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार
					24	निजी	नहरी	0.1260	
					24/2				
					17/1	निजी	नहरी	0.0130	
					16	निजी	नहरी	0.2162	
					15	निजी	नहरी	0.0093	हरमेलसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख सा.देह खातेदार
				17//	21	निजी	नहरी	0.0080	
					20	निजी	नहरी	0.2149	
					19	निजी	नहरी	0.0701	
					15	निजी	नहरी	0.0001	उपकार सिंह पु. अवतार सिंह जाति

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					14/1	निजी	नहरी	0.0623	जटसिख सा. देह खातेदार 0.253 है.
					14/2	निजी			बलदेव सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पु. श्रवण सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार 0.240 है.
					13	निजी	नहरी	0.1855	उपकार सिंह पु. अवतार सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार 0.013 है.
					12	निजी	नहरी	0.2450	बलदेव सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पु. श्रवण सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार
					11	निजी	नहरी	0.1314	
					9	निजी	नहरी	0.0300	उपकार सिंह पु. अवतार सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार
					8	निजी	नहरी	0.1518	
					7	निजी	नहरी	0.2457	
					6	निजी	नहरी	0.2052	
					5	निजी	नहरी	0.1194	
					4	निजी	नहरी	0.0226	
				18//	10	निजी	नहरी + खाला	0.1081	हरमेलसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख सा.देह खातेदार
					9	निजी	नहरी	0.0247	
					5	निजी	बारानी	0.0502	उपकार सिंह पु. अवतार सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार
					4	निजी	बारानी	0.1254	
					3	निजी	बारानी	0.1997	
					2	निजी	नहरी	0.2512	
					1	निजी	नहरी + खाला	0.2116	
				14//	25	निजी	बारानी	0.2483	दुलीचन्द, विरेन्द्र कुमार पिसरान दौलतराम जाति कुम्हार सा. 7 ई छोटी खातेदार
					24/1	निजी	बारानी	0.1891	देश बन्धु विश्व बन्धु पिसरान हरदयाल जाति खत्री सा. देह बहिब 0.063 है.
					24/2	निजी			दुलीचन्द, विरेन्द्र कुमार पिसरान दौलतराम जाति कुम्हार सा. 7 ई छोटी खातेदार
					23	निजी	नहरी	0.1147	दुलीचन्द 1.613 है0 विरेन्द्र कुमार 2.941 है0 पिसरान दौलतराम गंगाधर , दौलतराम सूरजभान पिसरान रामचन्द्र ब.हि.ब. 1.265 है0 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार
					22	निजी	नहरी	0.0398	
					16	निजी	नहरी	0.0175	
				19//	1/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0007	राजस्थान सरकार
					1/2	निजी	बारानी		गुरदेव सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति कम्बो सिख सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी. जे. शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन
				13//	23/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0139	राजस्थान सरकार
					23/2	निजी	बारानी		कृष्णलाल पुत्र तारूराम जाति नायक सा.देह खातेदार रहन 2.997 है. रहननामा एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					22/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0130	राजस्थान सरकार
					22/2	निजी	बारानी	0.1046	दौलतराम पुत्र रामचन्द्र कौम कुम्हार सा. 7ई छोटी खातेदार
					21/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0130	राजस्थान सरकार
					21/2	निजी	बारानी	0.2059	दौलतराम पुत्र रामचन्द्र कौम कुम्हार सा. 7ई छोटी खातेदार
					20/1	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0130	राजस्थान सरकार
					20/2	निजी	बारानी	0.0902	दौलतराम पुत्र रामचन्द्र कौम कुम्हार सा. 7ई छोटी खातेदार
					19	निजी	बारानी	0.2128	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					18	निजी	बारानी	0.2328	कृष्णलाल पुत्र तारुराम जाति नायक सा.देह खातेदार रहन 2.997 है. रहननामा एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					17	निजी	बारानी	0.0987	
					16	निजी	बारानी	0.0007	
					15	निजी	बारानी	0.1753	
					14	निजी	बारानी	0.2361	
					13	निजी	बारानी	0.0998	
					12	निजी	बारानी	0.0026	
					7	निजी	बारानी	0.0292	
					6	निजी	बारानी	0.2009	युसुफ फजलदीन मांडूखां पिता नूरदीन जाति छिपा मुसलमान सा.देह खातेदार
				12//	11	निजी	बारानी	0.0142	
					10	निजी	बारानी	0.2062	
					9	निजी	बारानी	0.0210	गिरधारी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार 0.064 है., जेसाराम पुत्र रामचन्द्र कुम्हार 0.040 है., युसुफ फजलदीन मांडूखां पिता नूरदीन जाति छिपा मुसलमान सा.देह खातेदार 0.022 है.
					3/1	निजी	बारानी	0.0113	
					2	निजी	बारानी	0.2032	युसुफ फजलदीन मांडूखां पिता नूरदीन जाति छिपा मुसलमान सा.देह खातेदार
					1	निजी	बारानी	0.1876	
				4//	21/1	निजी	नहरी	0.0124	महेन्द्र कौर पत्नी चूहड़सिंह हरविन्द्रसिंह पुत्र चूहड़सिंह कौम जटसिख सा.देह खातेदार रहन बैंक आफ इंडिया. शाखा साहुवाला मुर्तहीन
					21/2	निजी	खाला		
					19	निजी	नहरी	0.0375	सन्नी गर्ग पुत्र सुरेन्द्र गर्ग जाति अग्रवाल नि. 3जे 23 जवाहर नगर श्रीगंगानगर
			(13) 11 एल एन पी	51//	23	निजी	नहरी	0.1631	
					22	निजी	नहरी	0.2070	जमनादेवी पत्नी हजारीराम विमलादेवी पत्नी पृथ्वीराज संजय,सुर्यप्रकाश,पिता पृथ्वीराज राजपाल बट्टीप्रसाद पि. हजारीराम जाति जाट सा. देह गैर खातेदार
					18/1	निजी	औद्योगिक	0.2428	महेन्द्रपाल पुत्र हुसनलाल कौम खत्री सा.579 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर खातेदार 0.115 है.
					18/2	निजी	नहरी		
									विनोद कुमार पुत्र लीलूराम प्रवीणदेवी पत्नी विनोद कुमार ब.हि.ब. जाति अग्रवाल सा.देह श्रीगंगानगर खातेदार 0.138 है.
					17/1	निजी	औद्योगिक	0.0800	महेन्द्रपाल पुत्र हुसनलाल कौम खत्री सा.579 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर खातेदार 0.115 है.
					17/2	निजी	नहरी		
									विनोद कुमार पुत्र लीलूराम प्रवीणदेवी पत्नी विनोद कुमार ब.हि.ब. जाति अग्रवाल सा.देह श्रीगंगानगर खातेदार 0.113 है.
					15/1	निजी	नहरी	0.0045	संजय गर्ग पुत्र बजरंग लाल गर्ग जाति अग्रवाल सा. 133 अग्रसेन नगर 0.016 है. राम कुमार पु. आदराम जाति जाट सा. देह खातेदार हि. 0.1610 है. हि. रहन आडीबीआई एसजीएनआर
					15/2	रीको	गैर मुमकिन सड़क		
					14	निजी	नहरी	0.2183	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
									राम कुमार पुत्र आदराम जाति जाट सा देह खातेदार 0.230 है. रहन आईडीबीआई एसजीएनआर संजय गर्ग पुत्र बजरंग लाल जाति अग्रवाल सा. 133 अग्रसेन नगर 0.023 है.
					13/1	निजी	नहरी	0.1207	गैर खातेदार राम कुमार पु. आदराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन
					13/2	निजी			
					8	निजी	नहरी	0.0099	आईडीबीआई एसजीएनआर

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					7	निजी	नहरी + वाणिज्यक	0.2317	धीरज सिंगला पुत्र सुरेन्द्र सिंगला हि. 0.083 है. जाति अग्रवाल सा. 79 जी ब्लाक श्रीगंगानगर खातेदार, ओपी मोटर्स 0.014 है. 479 पुरानी सिविल हास्पिटल रोड. सिरसा जरिये डाईरेक्टर अश्वनी बटला पुत्र ओम प्रकाश बटला जाति बटला सा. 8 सी ब्लॉक सिरसा नरेश छाबड़ा पु. रामनारायण छाबड़ा जाति अरोड़ा विनोबा बस्ती अंकुर मंगलानी पु. रमेश कुमार मंगलानी जाति अरोड़ा सा. 22 एच ब्लाक श्रीगंगानगर हि. 0.089, दलजीत सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति कम्बोज सा. चक दोई छोटी 0.010 है., संजय गर्ग पुत्र बजरंग लाल जाति अग्रवाल सा. 133 अग्रसेन नगर 0.057 है.
					6/1	रीको	गैर मुमकिन सड़क	0.0297	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					6/2	निजी	नहरी + वाणिज्यक	0.0132	धीरज सिंगला पुत्र सुरेन्द्र सिंगला हि. 0.064 है. जाति अग्रवाल सा. 79 जी ब्लाक श्रीगंगानगर, ओपी मोटर्स 0.011 है., संजय गर्ग पुत्र बजरंग लाल 0.040 है. नरेश छाबड़ा पु. रामनारायण छाबड़ा जाति अरोड़ा सा. 368 विनोबा बस्ती अंकुर मंगलानी पु. रमेश कुमार मंगलानी जाति अरोड़ा सा. 22 एच ब्लाक श्रीगंगानगर हि. 0.062 . . .
					5/1	निजी	वाणिज्यक	0.0662	ओपी मोटर्स 0.177 है.
					5/2	रीको	गैर मुमकिन सड़क		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					4	निजी	गैर मुमकिन वाणिज्यक	0.1339	ओपी मोटर्स 0.228 है., दलजीत सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति कम्बोज सा. 2ई छोटी 0.025 है.
			(14) 16 एम एल	39//	25/1	निजी	नहरी+आवासीय	0.0240	गुरमेल कौर पत्नि रिछपाल सिंह कम्बो सिख सा. 2 ई छोटी खातेदार रहन-यूको बैंक शाखा हिरनावाली
					25/2	रीको	गैर मुमकिन सड़क	0.0760	रीको प्रा. प्राईवेट लिमिटेड श्रीगंगानगर
					24	निजी	नहरी + आवासीय	0.0483	गुरमेल कौर पत्नि रिछपाल सिंह कम्बो सिख सा. 2 ई छोटी खातेदार रहन-यूको बैंक शाखा हिरनावाली
					17	निजी	नहरी	0.0012	गुरमेल कौर पत्नि रिछपाल सिंह कम्बोसिख सा. 2 ई छोटी 0.058 है. खातेदार रहन-यूको बैंक शाखा हिरनावाली जगदीश कुमार छाबड़ा पुत्र देशराज जाति अरोड़ा सा. चूनावढ विक्रमजीत पुत्र मुलखराज जाति अरोड़ा सा. शंकर कॉलोनी संजय गुप्ता पुत्र लीलाधर जाति अग्रवाल सा. 5 सी बलाक आशीष गोयल पुत्र राजकुमार गोयल जाति अग्रवाल सा. 39 मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर 0.003 है. ,जगदीश कुमार छाबड़ा पुत्र देशराज सा. चुनावढ 0.132 है. विक्रम जीत पुत्र मुलकराज 0.145 है. किरण कुमार पुत्र मुलकराज 0.145 है जाति अरोड़ा सा. शंकर कॉलोनी, सुनील पुत्र प्रेमराज 0. 106 है. जाति अग्रवाल 2096 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर दीपक कुमार पु. पुरषोत्तम लाल जाति अग्रवाल सा. 303 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर खातेदार 0.

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									047 है. हि.
					16/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0760	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					16/2	निजी	नहरी	0.1587	जगदीश कुमार छाबड़ा पुत्र देशराज जाति अरोड़ा चुनावढ 0.132 है. विक्रमजीत पुत्र मुलकराज 0.145 है. किरण कुमार पुत्र मुलकराज 0.145 है. जाति अरोड़ा शंकर कॉलोनी सुनील पुत्र प्रेम राज 0.106 है. जाति अग्रवाल 2096 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर, जगदीश कुमार छाबड़ा पुत्र देशराज जाति अरोड़ा सा. शंकर कॉलोनी संजय गुप्ता पुत्र लीलाधर 5 पी ब्लॉक आशीष कुमार पुत्र रामकुमार गोयल जाति अग्रवाल सा. 39 मॉडल कॉलोनी श्रीगंगानगर गुरमेल कौर पत्नि रिछपाल सिंह कम्बो सिख 0.041 है. सा. 2 ई छोटी खातेदार रहन- यूको बैंक शाखा हिरनावाली
					15/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0760	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					15/2	निजी	खाला + गैर मुमकिन वाणिज्यक	0.0002	प्रदीप कुमार पु. के.बी राय डी.डी गुप्ता पु. रामदत्त बहिब जाति अग्रवाल सा. गंगानगर
					6/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0743	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					6/2	निजी	वाणिज्यक		बन्ता सिंह पु. बचन सिंह जाति कम्बोसिख सा. देह 0.177 है.
					5/1	रीको	गैर मुमकिन सडक नहरी + खाला+ वाणिज्यक	0.0739	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					5/2	निजी	नहरी + खाला + वाणिज्यक		गुरमेज कौर पत्नि जसवन्त सिंह हरप्रीत सिंह पु. जसवन्त सिंह नवप्रीत कौर गगनदीप कौर पुत्रियां जसवन्त सिंह बहिब 0.046 है. बन्ता सिंह पु. बचन सिंह जाति कम्बोसिख सा. देह 0.131 है.
				38//	21	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0162	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर सोहन लाल पु. फूसाराम जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार
					20	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0724	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर साहबराम पु. फूसाराम जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार सोहन लाल पु. फूसाराम जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार
					11	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0760 0.0003	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर साहबराम पु. फूसाराम जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार
					10	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0760 0.0004	
					1	निजी निजी	गैर मुमकिन रास्ता नहरी + खाला	0.0760 0.0010	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर विजय कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र रामकुमार, पुष्पादेवी पत्नि विजय कुमार उर्फ विनोद कुमार जाति अग्रवाल बा. हि.बा. सा. 1/370 हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर
				35//	21/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0760	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					21/2	निजी	नहरी +	0.0009	गजन सिंह पु. चतर सिंह जाति

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					20/1	निजी	खाला नहरी + खाला	0.0758	कम्बोसिख सा. देह खातेदार रहन—पंजाब नेशनल बैंक नई कृषि मण्डी
					20/2	रीको	गैर मुमकिन सडक		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					11/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0754	
					11/2	निजी	नहरी + खाला		गजन सिंह पु. चतर सिंह जाति कम्बोसिख सा. देह खातेदार
					10/1	निजी	नहरी + खाला	0.0754	रहन—पंजाब नेशनल बैंक नई कृषि मण्डी
					10/2	रीको	गैर मुमकिन सडक		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर
					1/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0755	
					1/2	निजी	नहरी + खाला		गजन सिंह पु. चतर सिंह जाति कम्बोसिख सा. देह खातेदार रहन—पंजाब नेशनल बैंक नई कृषि मण्डी
				34//	25	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0730	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर दीनदयाल पुत्र राधाकृष्ण शारदा पत्नि दीनदयाल 1/8 हि. विनोद कुमार पुत्र राधाकृष्ण प्रेमलता पत्नि विनोद कुमार 1/8 हि. श्याम लाल पुत्र केदार नाथ मीरा पत्नि श्याम लाल 1/8 हि. निवासी 43 एन बलाक अजय पुत्र फूल चंद संजू पत्नि अजय 1/8 हि. निवासी 282 अग्रसेन नगर अंजना पत्नि सुमित मोरी नि. लकडमण्डी 1/8 हि. जाति अग्रवाल चन्द्रेश पुत्र राय चंद नीलम पत्नि चन्द्रेश 1/8 हि. जाति ओसवाल नि. 34 के बलाक अर्जुन देव पुत्र खान चंद 1/8 हि. जाति अरोडा नि. डबलू-5 वाटर वर्क्स कॉलोनी श्रीगंगानगर जतिन्द्र पत्नि मंजीत जाति चिमनी 1/8 हि. नि. एस एस बी रोड श्रीगंगानगर 0.060 है. कृष्ण कुमार पु. गोपीराम फमिन्दर नाथ पु. देशराज 0.117 है. जाति अग्रवाल सा. 6 गणगोर नगर श्रीगंगानगर
					16	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0744	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर हार्दिक एग्रो ट्रेड प्रा.लि. श्रीगंगानगर जरिये डायरेक्टर मनोज कुमार गुप्ता पु. प्रेम कुमार गुप्ता 0.138 है. जाति अग्रवाल 4 ए 15 जवाहर नगर श्रीगंगानगर कृष्ण कुमार पु. गोपीराम फमिन्दर नाथ पु. देशराज 0.039 है. जाति अग्रवाल सा. 6 गणगोर नगर श्रीगंगानगर
					15	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0743	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर रेणु अग्रवाल पत्नि प्रदीप अग्रवाल सा. 6 ई 5 जवाहर नगर श्रीगंगानगर 0. 158 है. हार्दिक एग्रो ट्रेड प्रा.लि. श्रीगंगानगर जरिये डायरेक्टर मनोज कुमार गुप्ता पु. प्रेम कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल 4 ए 15 जवाहर नगर श्रीगंगानगर 0.019 है.
					6	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0754	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर मनीष कुमार पु. ताराचंद जाति अग्रवाल सा. 19जी ब्लाक श्रीगंगानगर खातेदार 0.1716 है., मंजरी गुप्ता पत्नि रविकिरण पुत्र ताराचन्द सा. सादुल

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					5	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0754	कॉलोनी बीकानेर 0.0054 है.
					5/2	रीको	गैर मुमकिन सडक		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर मजरी गुप्ता पत्नि रवि किरण गुप्ता पुत्री तारा चंद जाति अग्रवाल सा. सार्दुल कॉलोनी बीकानेर खातेदार 0.073 है. मजरी गुप्ता पत्नि रवि किरण गुप्ता पुत्री तारा चंद जाति अग्रवाल सा. सार्दुल कॉलोनी बीकानेर खातेदार 0.0054 है.
					5/3	निजी	नहरी		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर मोमनराम पु. पोकरराम जाति कुम्हार सा. 2 एमएल श्रीगंगानगर खातेदार 0.010 है.
				30//	25	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0754	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर सुखदेव चायल पुत्र श्री फूसाराम चायल जाति मोची बीकानेर
					16	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0754	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर हरजिन्दर सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति मजहबी सा 5 एल एन पी खातेदार 0.177 है.
					15	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक गैर मुमकिन वाणिज्यिक	0.0754	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर शंकर लाल पु. जीवनराम जाति मेघवाल सा. अरायण त. करनपुर खातेदार रहन-बैंक ऑफ बडोदा शाखा श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					6	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक गैर मुमकिन वाणिज्यिक	0.0753	
					5	रीको निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0754	
				29//	21/1	निजी	गैर मुमकिन वाणिज्यिक	0.0754	इन्द्रारानी पत्नि ओम प्रकाश जाति अरोडा निवासी 11 तिलक नगर श्रीगंगानगर 0.089 है.
					21/2	रीको	गैर मुमकिन सडक		रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर 0.076 है.
					21/3	निजी	गैर मुमकिन वाणिज्यिक + खाला		सुदेश पाहुजा एच यू एफ पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति अरोडा सा. 11 तिलक नगर श्रीगंगानगर
					20/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0753	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर 0.076 है.
					20/2	निजी	गैर मुमकिन वाणिज्यिक + खाला		युवराज अंगद सिंह पु. महेन्द्रपाल सिंह जाति अरोडा सिख सा. 7 ए 7 जवाहर नगर श्रीगंगानगर हि. 0.177 है.
					11/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0754	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर 0.076 है.
					11/2	निजी	नहरी + खाला + गैर मुमकिन वाणिज्यिक		युवराज अंगद सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह जाति अरोडा सिख सा. 7 ए 7 जवाहर नगर श्रीगंगानगर खातेदार 0.74 है. बरेन्द्र कौर पत्नि करतार सिंह जाति अरोडा सिख निवासी 4 एमएल निम्मावाली खातेदार 0.103 है.
					10/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0753	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर 0.076 है.
					10/2	निजी	नहरी + खाला		बरेन्द्र कौर पत्नि करतार सिंह जाति अरोडा सिख निवासी 4 एमएल निम्मावाली खातेदार 0.177 है.
					1/1	रीको	गैर मुमकिन सडक	0.0755	रीको प्रा. लिमिटेड श्रीगंगानगर 0.076 है.
					1/2	निजी	नहरी +		बरेन्द्र कौर पत्नि करतार सिंह जाति

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							खाला		अरोडा सिख निवासी 4 एमएल निम्मावाली खातेदार 0.088 है.
			(15) 15 एम एल	17//	21	सरकारी सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडकगैर मुमकिन रास्ता नहरी	0.07600.02 500.0565	राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार नत्थूराम पु. श्रीराम 1.164 है. जगराम 0.664 है. प्रकाश चंद मोहन लाल सतपाल मोतीराम पि. सुखराम कलावन्ती बसन्ती पुत्रियां सुखराम 0.829 है. बहिब हीरा देवी पत्नि बुधराम 0.833 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहननामा— नत्थूराम 1.164 है. एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					20	सरकारी सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक गैर मुमकिन रास्ता नहरी	0.0750 0.0260 0.0282	
					11	सरकारी सरकारी	गैर मुमकिन सडक गैर मुमकिन रास्ता	0.0760 0.0250	राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार
					10	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	0.0239	राजस्थान सरकार
				16//	25	ग्रेफ विभाग (केन्द्रीय सरकार) निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0880 0.0565	गैर मुमकिन सडक सुरक्षा मंत्रालय एवं भारतीय सेना सडक संगठन सत्यदेव वल्द आशाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					16	ग्रेफ विभाग (केन्द्रीय सरकार) निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0890 0.0838	
					15	ग्रेफ विभाग (केन्द्रीय सरकार) निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0880 0.1348	
					7	निजी	नहरी	0.0453	सत्यदेव उर्फ सतनाम पु. आसाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला श्रीगंगानगर
					6	ग्रेफ विभाग (केन्द्रीय सरकार) निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0890 0.1610	गैर मुमकिन सडक सुरक्षा मंत्रालय एवं भारतीय सेना सडक संगठन सत्यदेव वल्द आशाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					5	ग्रेफ विभाग (केन्द्रीय सरकार) निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0880 0.1640	
					4	निजी	नहरी	0.1295	
				13//	25	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0880 0.1130	राजस्थान सरकार सहीराम पु. हरीराम 1.049 है. सीता देवी पत्नि सहीराम 0.253 है. जाति कुम्हार सा. 6 एल एन पी खातेदार रहननामा—सहीराम 1.049 है. व सीता देवी 0.253 है. रहन— बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुरतगढ रोड श्रीगंगानगर मुर्तहीन
					24/1	निजी	नहरी	0.1924	ईमीलाल पु. राजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा 6 एलएनपी
					24/2	निजी			वनवारी पु. पतराम 1.296 है. जाति कुम्हार सा. 6 एलएनपी खातेदार रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन रामकुमार पु. वनवारी 0.538 है. जाति कुम्हार सा.
					18/1	निजी	नहरी	0.0239	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									देह खातेदार एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					18/2	निजी			ईमीलाल पु. राजाराम जाति कुम्हार सा.
					17/2	निजी	नहरी	0.2516	देह खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा 6 एलएनपी, रामकुमार पुत्र बनवारी लाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					17/1	निजी			रामकुमार पुत्र बनवारी लाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					16	निजी	नहरी	0.0393	जवाहरलाल पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार सा. 6 एल एन पी खातेदार रहन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ख्यालीवाला मुर्तहीन
					14	निजी	नहरी	0.2192	ईमीलाल पु. राजाराम जाति कुम्हार सा.
					13	निजी	नहरी	0.0945	देह खातेदार रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा 6 एलएनपी
					8	निजी	नहरी	0.1669	
					7	निजी	नहरी	0.1472	
					2	निजी	नहरी	0.0059	बनवारी पु. पतराम 1.296 है. जाति कुम्हार सा. 6 एलएनपी खातेदार रहन—एसबीबीजे शाखा उ.वि. श्रीगंगानगर मुर्तहीन रामकुमार पु. बनवारी 0.538 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					3/1	निजी	नहरी	0.2454	
					3/2	निजी			जवाहर लाल पु. सुखराम 1.122 है रहन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ख्यालीवाला. चन्दो पत्नि स्व सहीराम 0.164 है. कृष्ण पु. सहीराम 0.498 है. सुभाष पु. ईमीलाल 0.619 है. जाति कुम्हार सा. पन्नीवाली जाटान त. सादुलशहर रहन—0.619 है. एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा पन्नी वाली गुलामफरीद पु. अलादाद जाति मुसलमान 0.165 है. माया देवी पत्नि रोहताश धर्मपाल पु. घडसीराम जाति यादव 1.985 है. सा. 6 एल एन पी रहन—एम जी बी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला श्रीगंगानगर केडीश पु. सुरेश कुमार संयम पु. सरजीत कुमार अंकुर पु. संदीप कुमार जाति विश्णोई 0.121 है. बहिब सा. 8 एल एन पी अहमददीन अलादीता अबदुलगनी पि. अलादात खां 0.170 है. बहिब जाति मुसलमान गुरदेव कौर पत्नि राम लाल 0.506 है. जाति कुम्हार सा. कालूवाला खातेदारान
					4	निजी	नहरी	0.0735	
				8//	1	निजी	नहरी + खाला	0.1716	सहीराम पु. रावताराम 2.360 है. मोमन मनीराम पालाराम आदूराम राम कुमार पि. गोपीराम बहिब 1.600 है. अमर चंद पु. भागीरथ 0.235 है. पृथ्वी सुखदेव पि. गोपीराम 0.076 है. गुडुडी पु. गोपीराम 0.015 है. मथरा देवी पत्नि बृज लाल दलीप कुमार पु. बृज लाल नारायणी देवी पुत्री बृज लाल बहिब 0.038 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—सहीराम एसबीबीजे उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					2	निजी	नहरी	0.1745	
					8	निजी	नहरी	0.0205	
					9	निजी	नहरी	0.2489	
					10	निजी	नहरी + खाला	0.0499	
					24	निजी	नहरी	0.0069	अंकुर पु. संदीप कुमार संयम पु. सरजीत कुमार केडिश पु. सुरेश कुमार बहिब 1.176 है. जाति विश्णोई सा. 8 एल एन पी श्रीगंगानगर खातेदार
					23	निजी	नहरी	0.2358	
					22	निजी	नहरी	0.0641	
					19	निजी	नहरी	0.1457	सहीराम पु. रावताराम 2.360 है. मोमन मनीराम पालाराम आदूराम राम कुमार
					18	निजी	नहरी	0.1717	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					13	निजी	नहरी	0.0942	पि. गोपीराम बहिब 1.600 है. अमर चंद पु. भागीरथ 0.235 है. पृथ्वी सुखदेव पि. गोपीराम 0.076 है. गुड्डी पु. गोपीराम 0.015 है. मथरा देवी पत्नि बृज लाल दलीप कुमार पु. बृज लाल नारायणी देवी पुत्री बृज लाल बहिब 0.038 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—सहीराम एसबीबीजे उद्योग विहार श्रीगंगानगर
					12	निजी	नहरी	0.2199	
					11	निजी	नहरी	0.0002	
				5//	22	निजी	नहरी + खाला	0.0414	ओम प्रकाश पु. धनाराम जाति यादव सा. 6 एल एन पी खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला मुर्तहीन
					21	निजी	नहरी + खाला	0.2443	
					20	निजी	नहरी	0.1540	
					11	निजी सरकारी	नहरी गैर मुमकिन सडक	0.0380 0.2150	रोहिताश पु. घडसीराम हि. 1/2 धर्मपाल पु. घडसीराम 1/2 हि. कौम अहीर सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला राजस्थान सरकार
					10	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	0.0250	
				6//	25	निजी	नहरी	0.0552	रोहिताश पु. घडसीराम हि. 1/2 धर्मपाल पु. घडसीराम 1/2 हि. कौम अहीर सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला
					16	निजी	नहरी	0.1869	
					15	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0750 0.1679	राजस्थान सरकार रोहिताश पु. घडसीराम हि. 1/2 धर्मपाल पु. घडसीराम 1/2 हि. कौम अहीर सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला
					14	निजी	नहरी	0.0198	
					7	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0130 0.0318	राजस्थान सरकार रोहिताश पु. घडसीराम हि. 1/2 धर्मपाल पु. घडसीराम 1/2 हि. कौम अहीर सा. देह खातेदार रहन—एमजीबी ग्रा. बैंक शाखा ख्यालीवाला
					6	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.2150 0.0380	
					5	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.1770 0.0750	राजस्थान सरकार सुरेन्द्र कुमार सत्यप्रकाश पि. बाबूराम बहिब जाति अग्रवाल सा. जी ब्लाक श्रीगंगानगर खातेदार
					4	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0120 0.0391	
				2//	25	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.1770 0.0750	
					24	सरकारी निजी	गैर मुमकिन सडक नहरी	0.0130 0.0217	हेतराम हंसराज पि. लाधूराम बहिब जाति विशनोई सा. देह खातेदार
			(16) 1 डी छोटी	46//	3/1	निजी	नहरी + खाला	0.0130	
					4/1	निजी	नहरी + खाला	0.0500	

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					5/1	निजी	नहरी	0.0250	जगदीश जयदीप पि. स्व. सुरजाराम बहिब गुडडी देवी उर्फ लखेसरी पत्नि जगदीश कौम विशनोई सा. चक 1 डी छोटी खातेदार 0.089 है. रहननामा—जयदीप पु. सुरजाराम रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां
					7	निजी	नहरी	0.0750	हेतराम हंसराज पि. लाधूराम बहिब जाति विशनोई सा. देह खातेदार
					14	निजी	नहरी	0.0250	राजेश कुमार पि. स्व. ओम प्रकाश कौम विशनोई सा. चक 1 डी छोटी खातेदार बहिब 0.253 है.
					15/2	निजी	नहरी	0.0640	राजेश कुमार पु. ओमप्रकाश जाति विशनोई सा. देह खातेदार 0.064 है. रहन—एसएसबीबीजे शाखा कालियां श्रीगंगानगर
					16/1	निजी	नहरी	0.0250	जगदीश जयदीप पि. स्व. सुरजाराम बहिब गुडडी देवी उर्फ लखेसरी पत्नि जगदीश कौम विशनोई सा. चक 1 डी छोटी खातेदार 0.064 है. रहननामा—जगदीश पु. सुरजाराम गुडडी देवी उर्फ लखेसरी पत्नि जगदीश रहन—एसएसबीबीजे शाखा कालियां
				40//	10	निजी	नहरी	0.0250	हेमाराम वल्द रतीराम 2.182 है.
					11	निजी	नहरी	0.2400	जगदीश वल्द हेमाराम रहन—पंजाब
					12	निजी	नहरी	0.1650	नेशनल बैंक शाखा नई धान मण्डी
					13	निजी	नहरी	0.0130	श्रीगंगानगर 1.265 है. राम सिंह पु.
					17	निजी	नहरी	0.0500	कालूराम 2.009 है. रहन—एसबीबीजे
					18	निजी	नहरी	0.2270	शाखा कालियां दर्शना देवी पत्नि
					19	निजी	नहरी	0.2400	रायसाहब 2.009 है. जाति विशनोई नि.
					20	निजी	नहरी	0.0380	गुमजाल रहन—एसबीबीजे शाखा
					22/1	निजी	नहरी	0.0380	कालियां मुर्तहीन भूप सिंह वल्द
					23/1	निजी	नहरी	0.0890	कानाराम 1.916 है. हि.
					24/1	निजी	नहरी	0.0890	रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां
					25	निजी	नहरी	0.0250	मुर्तहीन जगदीश पु. हेतराम हि. 0.962
				39//	1	निजी	नहरी + खाला	0.0250	रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां
					2	निजी	नहरी	0.0130	मुर्तहीन नरसीराम विष्णु कुमार पि.
					6	निजी	नहरी + खाला	0.0500	मनोहर लाल हि. 0.963 है. कौम
					7	निजी	नहरी	0.0900	विशनोई सा. गुमजाल खातेदार
					8	निजी	नहरी	0.1260	रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां
					9	निजी	नहरी	0.2400	मुर्तहीन राममूर्ति बेवा हनुमान कुलदीप
					10	निजी	नहरी	0.2530	वल्द हनुमान बहिब 1.025 है.
					11	निजी	नहरी	0.0250	रहननामा—राममूर्ति व कुलदीप रहन
					12	निजी	नहरी	0.0380	पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीगंगानगर
					13	निजी	नहरी	0.1770	मुर्तहीन पृथ्वीराज निर्मला देवी माता
					14	निजी	नहरी	0.2040	शिवकुमार मायादेवी पत्नि
					15	निजी	नहरी + खाला	0.2400	शिवकुमार,सूनीता देवी कमलेश देवी,
					16	निजी	नहरी + खाला	0.0130	मंजू देवी पुत्रीया शिवकुमार, रविन्द्र
									कुमार पुत्र शिवकुमार बहिब 0.341
									मनोहर लाल राजेन्द्र नरेश कुमार पि.
									अमी चंद रहननामा—मनोहर लाल
									रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां
									मुर्तहीन रहननामा—नरेश कुमार 0.341
									है. रहन—एसबीबीजे शाखा श्रीगंगानगर
									मुर्तहीन निर्मला देवी बेवा अमी चंद
									मुनी देवी कृष्णा देवी भागवन्ती देवी दु.
									अमी चंद बहिब 2.732 है. ओम प्रकाश
									संदीप कुमार पि. बुटीराम हि. 1.025 है.
									बनवारी लाल 3.073 हि. पि. जवानाराम
									रहन—एसबीबीजे (एडीबी श्रीगंगानगर)
									हंसराज पृथ्वीराज इन्द्रराज महेन्द्र
									सुरेन्द्र पि. सोहन लाल बहिब 3.073
									हि. रहननामा— हंसराज पृथ्वीराज

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन सुरेन्द्र कुमार सुनील कुमार पि. रामस्वरूप बहिब 1.025 है. जाति विशनोंई सा. देह खातेदार अजय कुमार वल्द हर चंद 1.908 है. काशीराम साहबराम पि. रामरख 3.073 है. हि. सुनील कुमार 0.898 है. पि. भूपराम विजयपाल पु. रामस्वरूप 1.798 है. रहननामा- अजय कुमार विजयपाल रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन इन्द्रा देवी पत्नि आत्माराम अमित कुमार पु. आत्माराम किरण पूजा पुत्रियां आत्माराम बहिब 0.899 है. जाति विशनोंई सा. गुमजाल (पंजाब खातेदार)
				38//	1	निजी	नहरी	0.0380	जगदीश पु. हेतराम 0.131 है. हेमाराम भूपराम पि. कानाराम व रामप्रताप पि. रतीराम बहिब 0.787 है. नरसीराम विष्णु कुमार पि. मनोहर लाल बहिब 0. 131 है. राम सिंह रायसाहब पि. कालूराम राममूर्ति हनुमान कुलदीप वल्द हनुमान बहिब 0.093 है. रामस्वरूप पि. सहीराम बहिब 0.182 है. कौम विशनोंई रामरख सोहन लाल छज्जूराम पि. जवानाराम बहिब 0.844 है. कौम विशनोंई सा. देह खातेदार रहननामा-राममूर्ति व कुलदीप 0.093 है. रहन-पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर मुर्तहीन रहन नरसी विष्णु जगदीश रहननामा एसबीबीजे कालियां
					2	निजी	नहरी	0.0380	
					3	निजी	नहरी	0.0380	
					4	निजी	नहरी	0.0380	रामस्वरूप पु. हर चंद श्रीमति सुनिता पत्नि रामस्वरूप बहिब 4.617 है. कौम विशनोंई रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन
					5	निजी	नहरी	0.0380	
					6	निजी	नहरी	0.2530	
					7	निजी	नहरी	0.2530	
					8	निजी	नहरी	0.2530	
					9	निजी	नहरी	0.2530	
					10	निजी	नहरी	0.2530	
					11	निजी	नहरी	0.0130	
					12	निजी	नहरी	0.0130	
					13	निजी	नहरी	0.0130	
					14	निजी	नहरी	0.0130	
					15	निजी	नहरी	0.0130	
				37//	1	निजी	नहरी + खाला	0.0380	लाल चंद पु. बीदाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन
					2	निजी	नहरी	0.0380	
					3	निजी	नहरी	0.0380	हेतराम पु. बीदाराम व नरेन्द्र कुमारी पत्नि हेतराम जाति कुम्हार सा. 1 डी छोटी खातेदार रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन
					4	निजी	नहरी	0.0380	
					5	निजी	नहरी	0.0380	प्रशांत पुत्र अजय कुमार जाति विशनोंई सा देह खातेदार
					6	निजी	नहरी	0.2530	
					7	निजी	नहरी	0.2530	हेतराम पु. बीदाराम व नरेन्द्र कुमारी पत्नि हेतराम जाति कुम्हार सा. 1 डी छोटी खातेदार रहन-एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन
					8	निजी	नहरी	0.2530	
					9	निजी	नहरी	0.2530	
					10	निजी	नहरी + खाला	0.2530	
					11	निजी	नहरी + खाला	0.0130	
					12	निजी	नहरी	0.0130	
					13	निजी	नहरी	0.0130	
					14	निजी	नहरी	0.0130	
					15	निजी	नहरी	0.0130	प्रशांत पुत्र अजय कुमार जाति विशनोंई सा देह खातेदार

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				36//	1/2	निजी	नहरी	0.0380	महावीर प्रसाद 0.177 है. पृथ्वीराज 0.149 है. सतपाल 1.702 है. पि. हरिराम जाति ब्राह्मण बट्टीराम 0.033 है. ओमप्रकाश 0.033 है. पि. मनसाराम राजेन्द्र पु. गोपालराम 0.228 है. कोम विशनोई राजपाल 0.173 है. रुपराम उर्फ गोपीराम 0.173 है. पि. सुखदेव सिंह हनुमान श्रवणराम पि. दुली चंद बहिब 0.013 है. चानन सिंह वल्द स्वरूप सिंह 0.773 है. कुम्हार सा. देह ललिता सिडाना पत्नि रूप सिडाना 1.436 है. रूप चंद सिडाना (एच यू एफ) पु. सोहन लाल सिडाना 1.290 है. जाति अरोडा नि. 67 एन ब्लाक श्रीगंगानगर पदमावती पत्नि सत्यप्रकाश 0.575 है. रजनी पत्नि पवन कुमार 0.400 है. सुमन पत्नि वेदप्रकाश 0.975 है. जाति अग्रवाल नि. श्रीगंगानगर खातेदार हकत्याग से—हनुमान प्रसाद श्रवणराम पि. दुली चंद मुकेश कुमार पु. रामकरण बहिब 1.017 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार कालीदेवी पत्नि गोपाल राम 0.025 है.
					2/2	निजी	नहरी	0.0500	
					3/2	निजी	गैर मुमकीन आबासीय	0.0380	ललिता सिडाना पत्नि रूप सिडाना जाति अरोडा नि. 67 एन ब्लाक श्रीगंगानगर
					4	निजी	नहरी	0.0380	महावीर प्रसाद 0.177 है. पृथ्वीराज 0.149 है. सतपाल 1.702 है. पि. हरिराम जाति ब्राह्मण बट्टीराम 0.033 है. ओमप्रकाश 0.033 है. पि. मनसाराम राजेन्द्र पु. गोपालराम 0.253 है. कोम विशनोई राजपाल 0.173 है. रुपराम उर्फ गोपीराम 0.173 है. पि. सुखदेव सिंह हनुमान श्रवणराम पि. दुली चंद बहिब 0.013 है.
					5	निजी	नहरी	0.0380	
					6	निजी	नहरी	0.2400	
					7/2	निजी	नहरी	0.0750	
					8/1	निजी	नहरी	0.0630	
					9/2	निजी	नहरी	0.0500	
					10	निजी	नहरी	0.0250	
					13/2	निजी	नहरी	0.0130	चानन सिंह वल्द स्वरूप सिंह 0.773 है. कुम्हार सा. देह ललिता सिडाना पत्नि रूप सिडाना 1.436 है. रूप चंद सिडाना (एच यू एफ) पु. सोहन लाल सिडाना 1.290 है. जाति अरोडा नि. 67 एन ब्लाक श्रीगंगानगर पदमावती पत्नि सत्यप्रकाश 0.575 है. रजनी पत्नि पवन कुमार 0.400 है. सुमन पत्नि वेदप्रकाश 0.975 है. जाति अग्रवाल नि. श्रीगंगानगर खातेदार हकत्याग से—हनुमान प्रसाद श्रवणराम पि. दुली चंद मुकेश कुमार पु. रामकरण बहिब 1.017 है. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
					15/2	निजी	नहरी	0.0130	
				23//	20	निजी	नहरी	0.0250	नरेन्द्र कुमारी पत्नि हेतराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन—एसबीबीजे शाखा कालियां मुर्तहीन
					21	निजी	नहरी	0.2150	जगजीत सिंह बलविन्द्रजीत सिंह पि. हजूर सिंह कौम कुम्हार बहिब सा. देह खातेदार
					22	निजी	नहरी	0.0380	
				24//	1	सिंचाई विभाग सरकारी	नहर आबादी	0.1900 0.0250	राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार
					2	सिंचाई विभाग सरकारी	नहर आबादी	0.1900 0.0130	राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार
					3	सिंचाई विभाग	नहर	0.0380	राजस्थान सरकार
					7	सरकारी	आबादी	0.0380	राजस्थान सरकार
					8	सरकारी	आबादी	0.2150	राजस्थान सरकार

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मुरवा नं०	किला नं०				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					9	सरकारी	आबादी	0.2150	राजस्थान सरकार
					10	सरकारी	आबादी	0.0250	राजस्थान सरकार
					12	सरकारी	आबादी	0.0250	राजस्थान सरकार
					13	सरकारी	आबादी	0.2400	राजस्थान सरकार
					14	सरकारी	आबादी	0.2150	राजस्थान सरकार
					15	सरकारी	आबादी	0.0250	राजस्थान सरकार
					16	सरकारी	आबादी	0.2400	राजस्थान सरकार
					17	सरकारी	आबादी	0.2400	राजस्थान सरकार
					18	सरकारी	आबादी	0.0380	राजस्थान सरकार
					24	सरकारी	आबादी	0.0380	राजस्थान सरकार
					25	सरकारी	आबादी	0.2400	राजस्थान सरकार
				25//	5	सिंचाई विभाग	नहर	0.0250	राजस्थान सरकार
				5//	20	सरकारी	आबादी	0.0520	राजस्थान सरकार
					21	सरकारी	आबादी	0.0250	राजस्थान सरकार
					22	सिंचाई विभाग	नहर	0.0520	राजस्थान सरकार
				4//	13	सरकारी	आबादी	0.1020	राजस्थान सरकार
					14	सरकारी	आबादी	0.1400	राजस्थान सरकार
					15	सरकारी	आबादी	0.0380	राजस्थान सरकार
					16	सरकारी	आबादी	0.2400	राजस्थान सरकार
					17	सरकारी	आबादी	0.1650	राजस्थान सरकार
					18	सरकारी	आबादी	0.0130	राजस्थान सरकार
					24	सरकारी	आबादी	0.0130	राजस्थान सरकार
					25	सरकारी	आबादी	0.0380	राजस्थान सरकार
						सिंचाई विभाग	नहर	0.1270	राजस्थान सरकार

[फा सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/05/2011-एनएचडीपी-IVA]
माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2015

S.O. 230(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 242(E) dated 24 January 2014 published in Gazettee of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.15 on the Stretch of land from km. 173/000 to km 248/650 (Suratgarh-Sriganganagar section) in the District of Sriganganagar in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in 'Pratap Keshri, Sriganganagar Edition' dated 8th March, 2014, 'Lok Sammat, Sriganganagar Edition' dated 7th March, 2014 and 'Rajasthan Patrika, Sriganganagar Edition' 8th March, 2014 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 173/000 to km. 248/650 (Suratgarh-Srigangannagar Section) on the National Highway No.15 in the State of Rajasthan

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sri Ganga Nagar	(1) Suratgarh	(1) 3 S G M	21//	1	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0044	Govt. of Rajasthan
					2	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0284	Govt. of Rajasthan
					10	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0010	Govt. of Rajasthan
				12//	6	Central Government Farm	Nali Doyam	0.1337	Govt. of Rajasthan
					7	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0607	Govt. of Rajasthan
					14	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0825	Govt. of Rajasthan
					13	Central Government Farm	Nali Doyam	0.1078	Govt. of Rajasthan
					18	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0606	Govt. of Rajasthan
					19	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0671	Govt. of Rajasthan
					22	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0812	Govt. of Rajasthan
				11//	9	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0003	Govt. of Rajasthan
					10	Central Government Farm	Nali Doyam	0.0546	Govt. of Rajasthan
			(2) 1 S G M	48//	15	Private	Barani	0.0010	Madhurani w/o Janak Raj s/o Jagannath Caste Arora Sa Suratgarh Rahin - State Bank of Patiyala
					16	Private	Nali Doyam + Khala	0.2147	Nasib Kor w/o Mala Singh Jaswinder Singh Rajdevendra Singh s/o Mala Singh Sarvjeet Kor d/o Mala Singh Com Jat Sikh Sa Bhagwansir B Hi B Khatedar
					17	Private	Nali Doyam + Khala	0.0821	
					18	Private	Nali Doyam + Khala	0.0014	
					23	Private	Nali Doyam	0.1883	Navneet Midha S/o Roop Chand Arora, Ashok Kumar, Humam Chand Arora B Hi B Sa. Vijay nagar Khatedar
					22	Private	Nali Doyam	0.0638	
					24	Private	Nali Doyam	0.1788	
					25	Private	Nali Doyam	0.0541	Gori Shankar Weld Ladhuram Com Jat Sa Dungar Singh Pura Khatedar
				47//	3	Private	Barani + Gairmumkin Rasta	0.0130	Rita Devi w/o Ramprasad Agarwal Sa Ward No 18 Suratgarh Khatedar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					4	Private	Barani + Gairmumkin Rasta	0.1617	
					5	Private	Barani + Gairmumkin Rasta	0.0750	
					7/1	Private	Barani	0.1654	Swati Devi w/o Pawan Kumar Baghla Com Arora Sa Ward No 4 Suratgarh Khatedar
					7/2	Private			Rita Devi w/o Ramprasad Agarwal Sa Ward No 18 Suratgarh Khatedar
					8/1	Private	Barani	0.1624	
					8/2	Private			Swati Devi w/o Pawan Kumar Baghla Com Arora Sa Ward No 4 Suratgarh Khatedar
					9/1	Private	Barani	0.0075	
					9/2	Private			Rita Devi w/o Ramprasad Agarwal Sa Ward No 18 Suratgarh Khatedar
					11	Private	Barani	0.0794	Swati Devi w/o Pawan Kumar Baghla Com Arora Sa Ward No 4 Suratgarh Khatedar
					12	Private	Barani	0.2084	
					13	Private	Barani	0.1376	
					14	Private	Barani	0.0027	
					19	Private	Nali Doyam + Khala	0.0494	Anitaram w/o Jasraj Caste Arora Sa Suratgarh Khatedar Rehan-Punjab and Sindh Bank Branch Ganganagar Murthin
					20	Private	Nali Doyam + Khala	0.1805	
				38//	6	Private	Nehari	0.0066	Nanuram s/o Naryan s/o Shree Naryan Caste Kumar Sa Deh Khatedar Mor. SBBJ ADB Suratgarh.
					15	Private	Barani	0.0333	
					16	Private	Barani	0.0996	Om prakash Weld Deshram Com Arora Sa Deh Khatedar
					24/1	Private	Barani	0.0391	Ramandeep Weld Radheyshyam Chugh Ward No 9 Suratgarh Khatedar
					24/2	Private			
					25	Private	Barani	0.1390	Om Prakash Weld Deshraj Com Arora Sa Deh Khatedar
		(2) Sadul shahar	(3) 11 T K W	9//	20	Irrigation Deptt.	Nehar	0.0057	Govt. of Rajasthan
					21	Private	Nehari	0.0662	Lal Singh Harnek Singh Ajayab Singh s/o Mehanga Singh B Hi B Com Tarkhan Sa Ganeshgarh Khatedar
				12//	1	Private	Nehari	0.0670	Nekshstra Singh s/o Baldev Singh Com Tarkhan 0.211 Hec Sa Dungarsinghpura Jagmohan Singh s/o Baldev Singh Com Tarkhan Hec 0.042 Sa Dungarsinghpura Khatedar
					10	Private	Nehari	0.0482	Jagmohan Singh s/o Baldev Singh Com Tarkhan 0.168 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar Swarn Singh s/o Balwant Singh Com Tarkhan 0.085 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar Rehanama Swarn Singh Rehan S B B J Branch A D B Sriganganagar Murthin
					11	Private	Nehari	0.0359	Swarn Singh s/o Balwant Singh Com Tarkhan 0.253 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Rehan S B B J Branch A D B Sriganganagar Murthin
					20	Private	Nehari	0.0160	Swarn Singh s/o Balwant Singh Com Tarkhan 0.085 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar Rehan S B B J Branch A D B Sriganganagar Murthin Gurmit Singh s/o Mukhtyar Singh Com Tarkhan 0.168 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar Rehan S B B J Bank Branch Dungarsinghpura Murthin
					21	Private	Nehari	0.0049	Gurmit Singh s/o Mukhtyar Singh Com Tarkhan 0.253 Hec Sa Dungarsinghpura Khatedar Rehan SBBJ Bank Branch Dungarsinghpura Murthin
			(4) Ganeshgarh Barani	11//	1	Private	Barani	0.0177	Lal Singh Harnek Singh Jail
					10	Private	Barani	0.0698	Singh s/o Manga Singh Com
					11	Private	Barani	0.0319	Ramgadiya Com Siikh Sa Ganeshgarh Gair Khatedar
				5//	1	Private	Barani	0.0007	Puran Singh Weld Jwala Singh
					10	Private	Barani	0.0073	Com Jatsikh Sa Ganeshgarh
					11	Private	Barani	0.0212	Khatedar
					20	Private	Barani	0.0374	
					21	Private	Barani	0.0430	
		(3) Sri Ganga nagar	(5) 22 M L	2//	1	Private	Nehari	0.0505	Sohan Singh s/o Mukhtayar Singh Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar Rehan-Canera Bank Branch Sriganganagar
					10	Private	Nehari	0.0396	
					11/1	Private	Nehari	0.0212	Momanram s/o Khetaram Com
					11/2	Private			Jat Kasniya Sa Deh Khatedar Rehan SBBJ Branch Dungarsinghpura
					20	Private	Nehari	0.0062	Teja Singh s/o Mukhtyar Singh Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar Rehan- S B I Sriganganagar Murthin
			(6) 21 M L	50//	20	Private	Nehari	0.0172	Chawali Devi d/o Dhannaram Caste Jat Sa Deh Khatedar
					21	Private	Nehari	0.0674	Banshiram Weld Omprakash Caste Jat Sa Deh Khatedar
			(7) 7 M L	54//	1	Private	Nehari	0.0097	Sulochna Devi w/o Prem Kumar
					10	Private	Nehari	0.0247	Gupta Caste Agarwal Sa Jawahar Nagar Sriganganagar Khatedar
					11/1	Private	Nehari	0.0401	Mangtaram s/o Chenaram 2/4 Hissa Roshni Devi w/o Chenaram 1/4 Hissa Manglaram s/o Chenaram 1/4 Hissa Sa Deh Khatedar Rehan Sriganganagar Khst. Gra. Bank Branch Mahiyawali
					11/2	Private			Danaram s/o Khemaram Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehan-Corporation Bank Branch Sriganganagar Murthin Rehan Fuck and Vibhajan
					11/3	Private			Nathuram s/o Bahadarram Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehan Sriganganagar Khes. Gra Bank Branch Mahiyawali Murthin

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					11/4	Private			Rajesh Kumare s/o Bahadarram Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehan- Sriganganagar Khes.Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin
					20	Private	Nehari	0.0537	Kalawati w/o Jotram Rehan HDFC Bank Branch Sriganganagar Kaluram Khetpal s/o Jotram B Hi B Caste Jat B Hi B 0.139 Hec Sa Deh Khatedar Rehan- HDFC Bank Branch Sriganganagar Rehan Kaluram And Khetpal Ka
					21	Private	Nehari	0.0644	Sulochna Devi w/o Prem Kumar Gupta Caste Agarwal Sa Jawahar Nagar Sriganganagar Khatedar
				56//	1	Private	Nehari	0.0380	Omprakash Weld Hukmaram 1/2 Hi Indraj Gopiram And Anil Kumar Weld Bhagirath B Hi B 1/2 Hio Caste Jat Sa Mahiyawali Khatedar
				57//		Irrigation Deptt.	Nehar	0.2475	Govt. of Rajasthan
			(8) 1 G Choti	49//	10/1	Private	Nehari + Commercial	0.0006	Sujata Devi w/o Ramesh Chand Caste Maheshvari Hi 0.058 Hec Sa Deh Khatedar
					10/2	Private			Devendra Mittal H U F s/o K C Mittal Caste Agarwal Hi 0.058 Hec Ni Ganganagar Khatedar
					10/3	Private			Premilata w/o Vinod Kumar Sharda w/o Deendayal Caste Agarwal Hi 0.074 Hec Sa Deh Khatedar
					1	Private	Nehari	0.0700	Madhu Goyal w/o Vijay Goyal Ni 1 A 9 Jawahar Nagar Sriganganagar Khatedar
				36//	22	Private	Nehari	0.0406	Lakveer Singh s/o Harnek Singh
					21	Private	Nehari	0.1371	Gurvindera Singh s/o Lakhveer Singh Sa 2 G Badi Khatalbana B Hi B 0.541 Hec Jaskaran Singh s/o Shemsher Singh B Hi B 0.0330 Hec Gursahib Singh s/o Jaskaran Singh B Hi B 0.331 Caste Jatsikh Ni Setiya Farm Sriganganagar Rehannama Lakveer Singh And Gurvindera Singh 0.541 Hec Rehan- Ilhabad Bank Branch Sriganganagar
					20	Private	Nehari	0.1306	
					19	Private	Nehari	0.1959	
					18/1	Private	Nehari	0.0068	Kamaldeep d/o Sadhu Singh Gurpreet Singh s/o Sadhu Singh B Hi B Caste Sikh Ni Netewala Khatedar
					18/2	Private	Nehari		Lakhveer Singh s/o Harnek Singh Gurvindera Singh s/o Lakhveer Singh Sa 2 G Badi Khatalbana B Hi B 0.541 Hec Jaskaran Singh s/o Shemsher Singh B Hi B 0.0330 Hec Gursahib Singh s/o Jaskaran Singh B Hi B 0.331 Caste Jatsikh Ni Setiya Farm

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Sriganganagar Rehannama Lakhveer Singh And Guvindera Singh 0.541 Hec Rehan- Ilahbad Bank Branch Sriganganagar
					11/1	Private	Nehari	0.0179	Jadav w/o Surjaram Caste Jat Sa Netewala Khatedar
					11/2	Private			
					12	Private	Nehari	0.2150	Kamaldeep d/o Sadhu Singh Gurpreet Singh s/o Sadhu Singh B Hi B Caste Sikh Ni Netewala Khatedar
					13	Private	Nehari	0.1818	
					14	Private	Nehari	0.0173	
					7	Private	Nehari	0.2304	
					8	Private	Nehari	0.1964	
					9	Private	Nehari	0.0251	
					4	Private	Nehari	0.1000	
					3	Private	Nehari	0.0030	
					6	Private	Nehari	0.1112	
					5	Private	Nehari	0.2188	
				37//	10	Private	Nehari	0.0121	Permeshvari w/o Brij Lal Rajpal Vinod Kumar s/o Brij Lal Com Jat Sa Netewala B Hi B Khatedar Rehannama Vinod Kumar Jat 0.801 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala
					1	Private	Nehari	0.2375	
					2	Private	Nehari	0.1399	
					3	Private	Nehari	0.0330	
				19//	25	Private	Nehari + Khala	0.0639	Shyoprakash Rakesh s/o Hanuman B Hi B Caste Jat Saharan Sa Deh Khatedar Salam Khata Rahin State Bank of Bikaner and Jaipur Branch Udhog Vihar Sriganganagar Murthin
					24	Private	Nehari	0.1735	
					23	Private	Nehari	0.2497	
					22	Private	Nehari	0.1889	
					21	Private	Nehari	0.0792	
					18	Private	Nehari	0.0460	
					17	Private	Barani	0.1553	
					16	Private	Nehari + Khala	0.2445	
					15	Private	Nehari + Khala	0.0203	
				18//	20	Private	Nehari	0.2068	Ram Kumar s/o Jagmalram Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra. Bank Branch Sriganganagar Murthin
					19	Private	Nehari	0.0975	
					18	Private	Nehari	0.0083	
					13	Private	Nehari	0.2324	
					14	Private	Nehari	0.1311	Shiv Kumar Sanjay Kumar s/o Khetpal Caste Jat Saharan Sa Netewala B Hi B Khatedar Rehan Shiv Kumar 5.376 Hec Rehanama Corporation Bank Sriganganagar
					15	Private	Nehari	0.0265	
					12	Private	Nehari	0.2263	Ram Kumar s/o Jagmalram Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Sriganganagar Murthin
					11	Private	Nehari	0.1216	
					9	Private	Nehari	0.0050	
					8	Private	Nehari	0.0880	
					7	Private	Nehari	0.1977	Shiv Kumar Sanjay Kumar s/o Khetpal Caste Jat Saharan Sa Netewala B Hi B Khatedar Rehan Shiv Kumar 5.376 Hec Rehanama Corporation Bank Sriganganagar
					6	Private	Nehari	0.1900	
					5	Private	Nehari + Khala	0.0544	Jaymalram Weld Lakhuram Caste Jat Sihag Sa Netewala Khatedar Salam Khata Rahin Ilahbad Bank Barnch Udaram Cok Sriganganagar Murthin
				17//	10	Private	Nehari	0.1647	
					9	Private	Nehari	0.0543	
					1	Private	Nehari + Khala	0.1641	
					2	Private	Nehari +	0.2478	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Khala		
					3	Private	Nehari + Khala	0.1889	
					4	Private	Nehari + Khala	0.0572	
				15//	22	Private	Nehari	0.0292	Permishvari Devi w/o Late Shree Ram Singh Krishna d/o Ram Singh Vijendra Sunil Kumar Prem Kumar s/o Ram Singh B Hi B Caste Meghwal 1.594 Hec Sa Netewala Khatedar Rehanama Vijendra Sunil s/o Ram Singh 0.637 Hec Rehan SBBJ Branch U.V. Ganganagar Murthin Mor. Permishwari Devi , Krishna Prem Kumar 0.956 Hec. SBBJ U.V.B.R Sriganganagar
					23	Private	Nehari	0.1498	
					24	Private	Nehari	0.2150	
					25/1	Private	Nehari	0.0760	
					25/2	Private	Nehari + Khala		
					16	Private	Nehari + Khala	0.1943	Nathuram Brij Lal Kumbharam Nandram Megharam Bahadarram Hetram s/o Manfulram Manoj Kumar, Amil Pe BrijLal, Sunita D/o Brijlal B Hi B 0.0911 Hec. Caste Jat Sa 11 LNP Khetadar B Hi B Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Nathuram Nand Lal Hetram Rehan- Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Brij Lal Rehan- IDBI Bank Branch Ganganagar
					17/1	Private	Nehari	0.0426	Permishvari Devi w/o Late Shree Ram Singh Krishna d/o Ram Singh Vijendra Sunil Kumar Prem Kumar s/o Ram Singh B Hi B Caste Meghwal 1.594 Hec Sa Netewala Khatedar Rehanama Vijendra Sunil s/o Ram Singh 0.637 Hec Rehan SBBJ Branch U.V Ganganagar Murthin
					17/2	Private			
					15	Private	Nehari + Khala	0.0024	Nathuram Brij Lal Kumbharam Nandram Megharam Bahadarram Hetram s/o Manfulram Manoj Kumar, Amil Pe BrijLal, Sunita D/o Brijlal B Hi B 0.911 Hec. Caste Jat Sa 11 LNP Khetadar B Hi B Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Nathuram Nand Lal Hetram Rehan- Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Brij Lal Rehan- IDBI Bank Branch Ganganagar
				20//	25	Private	Nehari	0.0027	Anitarani W/o Naresh Kumar Caste Arora Sa 3 P 22 Jawaharnagar, Sriganganagar Mor. OBC Bank Sriganganagar
			(9) 5 M L	96//	21	Private	Barani	0.0200	Shiv Kumar Sanjay Kumar s/o Khetpal 1.007 Hec Hi B Hi B Sharwan Kumar Krishan Lal Mahaveer Prasad s/o Maniram Jat Saharan B Hi B 2.015 Hec Hi

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Sa Netewala Khatedar
					20	Private	Barani	0.2294	Banwari Lal Lekhrum Sajanram
					19	Private	Barani	0.0687	s/o Pemaram 3/4 Hi B Hi B Sarwan Kumar Krishan Lal Mahaveer Prasad s/o Maniram 1/4 Hi B Hi B Caste Jat Sa Netewala Khatedar
					11	Private	Barani	0.1211	Sunil Kumar S/o Satish Kumar
					12	Private	Barani	0.2470	Caste Jat Sa Netewala Khatedar
					13	Private	Barani	0.1151	Randeep S/o Balwant Singh Caste Jat Sa Netewala Khatedar
					9	Private	Barani	0.0697	Sashi Kant s/o Rameshwar Lal Caste Jat Sa. Shivpur Fatuhi Khatedar,
					8	Private	Barani	0.2388	Sushil Kumar S/o Devi Lal
					7	Private	Barani	0.1400	Caste Jat Sa. Netewala Khetewar
					6/1	Private	Barani	0.0006	Ratna Weld Teja Cate Jat Saharan Sa Deh Khatedar
					6/2	Government	Gairmumkin Rasta		Govt. of Rajasthan
					5/1	Private	Barani	0.1270	Ratna Weld Teja Cate Jat Saharan Sa Deh Khatedar
					5/2	Government	Gairmumkin Rasta	0.0130	Govt. of Rajasthan
					4	Private	Barani	0.2343	Ratna Weld Teja Cate Jat Saharan Sa Deh Khatedar
					3	Private	Barani	0.0498	
				85//	25	Private	Barani	0.2371	Hariram Ramji Lal Dhokelram
					24	Private	Barani	0.0501	s/o Saduram B Hi B 2.562 Hec
					16	Private	Barani	0.0560	Roshni d/o Saduram 0.123 Hec
				86//	21/1	Private	Barani	0.0130	Caste Kumar Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram B Hi B 2.193 Hec Hi Caste Kumar Sa 3 M L Laduram Weld Bhagwanaram 4.591 Hec Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram 0.491 Hec B Hi B Balwant Singh Amar Chand s/o Maniram Devi Lal Rampratap Satish Kumar s/o Ratnaram B Hi B 0.319 Hi Sa Netewala Lunaram Hanuman s/o Danaram B Hi B 0.246 Hec Brij Lal s/o Danaram 0.245 Hec Caste Kumar Hansraj Chunniram Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Singh s/o Bastiram 0.337 Hec Amar Chand s/o Maniram 1.942 Hi Balwant s/o Maniram 1.465 Hec Caste Jat Sa Netewala Khatedar Vishvjeet s/o Dhanraj 0.168 Hec Caste Kumar Sa 4 M L Rehanama Vishvjeet 0.168 Hec Rehan MGB Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama-Balwant 1.465 Hec Rehan- HDFC Bank Ltd Sriganaganagar Rehanama Amar Chand 1.942 Hec Rehan Corporation Bank Netewala Murthin Rehan Vinod Kumar Jitendra Kumar 2.684 Hec

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Ladhuram 4.591 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Amar Singh 0.056 Hec Rehan MGB Gra Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Ranjeet Kumar 0.056 Hec Rajendra Kumar 0.056 Hec. Rehan Marudhara Gra Bank Branch Mahiyawali
					21/2	Government	Gairmumkin Rasta	0.1188	Govt. of Rajasthan
					20	Private	Barani	0.2402	Hariram Ramji Lal Dhokelram s/o Saduram B Hi B 2.562 Hec Roshni d/o Saduram 0.123 Hec Caste Kumar Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram B Hi B 2.193 Hec Hi Caste Kumar Sa 3 M L Laduram Weld Bhagwanaram 4.591 Hec Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram 0.491 Hec B Hi B Balwant Singh Amar Chand s/o Maniram Devi Lal Rampratap Satish Kumar s/o Ratnaram B Hi B 0.319 Hi Sa Netewala Lunaram Hanuman s/o Danaram B Hi B 0.246 Hec Brij Lal s/o Danaram 0.245 Hec Caste Kumar Hansraj Chunniram Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Singh s/o Bastiram 0.337 Hec Amar Chand s/o Maniram 1.942 Hi Balwant s/o Maniram 1.465 Hec Caste Jat Sa Netewala Khatedar Vishvjeet s/o Dhanraj 0.168 Hec Caste Kumar Sa 4 M L Rehanama Vishvjeet 0.168 Hec Rehan MGB Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama-Balwant 1.465 Hec Rehan- HDFC Bank Ltd Sriganganagar Rehanama Amar Chand 1.942 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehan Vinod Kumar Jitendra Kumar 2.684 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Ladhuram 4.591 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Amar Singh 0.056 Hec Rehan MGB Gra Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Ranjeet Kumar 0.056 Rajendra Kumar 0.056 Hec. Rehan Marudhara Gra Bank Branch Mahiyawali Mani Ram Ranama Ladu Ram 4.591 Hect. Rahan
					19	Private	Barani	0.1228	
					13	Private	Barani	0.1140	
					12	Private	Barani	0.2428	
					11	Private	Barani	0.0623	
					9	Private	Barani	0.0689	
					8	Private	Barani	0.2447	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Corp. Bank Branch Netewala Murthin.
					7	Private	Barani	0.1054	Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram 0.974 Hec Hi Sadu s/o Parma 0.973 1/2 Hi Lunaram Hanumanram s/o Danaram B Hi B 0.486 1/2 Hi Brij Lal s/o Danaram 0.487 Hec Caste Kumar Sa 3 M L Khatedar Rehanama Vinod Kumar Jitendra Kumar 0.974 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin
					5	Private	Barani	0.0972	
					4	Private	Barani	0.2460	
					3/1	Private	Barani	0.0758	
					3/2	Private	Barani		Hariram Ramji Lal Dhokelram s/o Saduram B Hi B 2.562 Hec Roshni d/o Saduram 0.123 Hec Caste Kumar Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram B Hi B 2.193 Hec Hi Caste Kumar Sa 3 M L Laduram Weld Bhagwanaram 4.591 Hec Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram 0.491 Hec B Hi B Balwant Singh Amar Chand s/o Maniram Devi Lal Rampratap Satish Kumar s/o Ratnaram B Hi B 0.319 Hi Sa Netewala Lunaram Hanuman s/o Danaram B Hi B 0.246 Hec Brij Lal s/o Danaram 0.245 Hec Caste Kumar Hansraj Chunniram Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Singh s/o Bastiram 0.337 Hec Amar Chand s/o Maniram 1.942 Hi Balwant s/o Maniram 1.465 Hec Caste Jat Sa Netewala Khatedar Vishvjeet s/o Dhanraj 0.168 Hec Caste Kumar Sa 4 M L Rehanama Vishvjeet 0.168 Hec Rehan MGB Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama-Balwant 1.465 Hec Rehan- HDFC Bank Ltd Sriganganagar Rehanama Amar Chand 1.942 Hec Rehan Corporation Bank Netewala Murthin Rehan Vinod Kumar Jitendra Kumar 2.684 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehanama Amar Singh 0.056 Hec Rehan MGB Gra Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Ranjeet Kumar 0.056 Hec Rajendra Kumar 0.056 Hec. Rehan Marudhara Gra Bank Branch Mahiyawali Jitendra Kumar 2.684 Hec Rehan Corporation Bank Branch

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Netewala Murthin Rehanama Ladhuram 4.591 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehnama Amar Singh 0.056 Hec Rehan MGB Gra Bank Mahiyawali Murthin Rehanama Ranjeet Kumar 0.056 Hec Rehan Marudhara Gra Bank Branch Mahiyawali
				72//	25	Private	Barani	0.2466	Gurdayal s/o Nandram Cate Kumar Sa 3 M L Khatedar
					24	Private	Barani	0.0831	Hariram Ramji Lal Dhokelram s/o Saduram B Hi B 2.562 Hec Roshni d/o Saduram 0.123 Hec Caste Kumar Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram B Hi B 2.193 Hec Hi Caste Kumar Sa 3 M L Laduram Weld Bhagwanaram 4.591 Hec Sa 3 M L Vinod Kumar Jitendra Kumar s/o Laduram 0.491 Hec B Hi B Balwant Singh Amar Chand s/o Maniram Devi Lal Rampratap Satish Kumar s/o Ratnaram B Hi B 0.319 Hi Sa Netewala Lunaram Hanuman s/o Danaram B Hi B 0.246 Hec Brij Lal s/o Danaram 0.245 Hec Caste Kumar Hansraj Chunniram Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Singh s/o Bastiram 0.337 Hec Amar Chand s/o Maniram 1.942 Hi Balwant s/o Maniram 1.465 Hec Caste Jat Sa Netewala Khatedar Vishvjeet s/o Dhanraj 0.168 Hec Caste Kumar Sa 4 M L Rehanama Ladhuram 4.591 Hec. Rehan Calharatson Bank Branch Netawala Murthin Vishvjeet 0.168 Hec Rehan MGB Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama-Balwant 1.465 Hec Rehan-HDFC Bank Ltd Sriganganagar Rehanama Amar Chand 1.942 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehan Vinod Kumar Jitendra Kumar 2.684 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Rehnama Amar Singh 0.056 Hec Rehan MGB Gra Bank Branch Mahiyawali Murthin Ranjeet Kumar 0.056 Hec Rajendra Kumar 0.056 Hec.Rehan Marudhara Gra Bank Branch Mahiyawali Rehanama Ladhuram 4.591 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala Murthin Chetram s/o

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Hanuman Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin
					16	Private	Barani	0.0906	Gurdayal s/o Nandram Caste Kumar Sa 3 M L Khatedar
				71//	21	Private	Barani	0.0894	Chet Ram S/o Hanuman Caste Kumahar Sa Deh Khatedar Rahan SBBJ Branch UV Sriganganagar Murthin.
					20	Private	Barani	0.2466	Gurdayal s/o Nandram Caste Kumar Sa 3 M L Khatedar
					19	Private	Barani	0.0818	
					13	Private	Barani	0.0746	Megharam Delip Chand s/o Mansharam B Hi B Caste Kumar Sa 5 ML Khatedar Rehan The Bank of Rajasthan Ltd Check Ganeshgarh Murthin
					12	Private	Barani	0.2459	Gurdayal s/o Nandram Caste Kumar Sa 3 M L Khatedar
					11	Private	Barani	0.0986	
					9	Private	Barani	0.1068	
					8	Private	Barani	0.2445	Megharam Delip Chand s/o Mansharam B Hi B Caste Kumar Sa 5 ML Khatedar Rehan The Bank of Rajasthan Ltd Check Ganeshgarh Murthin
					7	Private	Barani	0.0678	
					5	Private	Barani + Khala	0.0612	
					4	Private	Nehari + Barani + Khala	0.2424	
					3	Private	Nehari + Khala	0.1154	
				62//	25	Private	Nehari	0.2280	Ramesh Lal 3.794 Hec Suresh Kumar 1.011 Hec s/o Tara Chand Sumitra Devi w/o Tara Chand 0.430 Hec Caste Arora Ni 27 GG Vijay Kumar s/o Bastiram Caste Kumar Ni 4 M L 0.506 Hec Gulab Devi w/o Ram Kumar 0.868 Hec Sheela Devi w/o Polaram 0.869 Hec Rajbala w/o Rajesh Kumar 0.868 Hec Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Ami Chand 1.618 Hec Devi Lal Banwari Lal Satish Kumar Rampratap s/o Ratnaram B Hi B 0.114 Hec Caste Jat Sa Netewala Khatedar Jamna Devi w/o Govind Prakash Caste Arora 0.632 Hec Sa 72 C Prem Nagar Inderjeet s/o Ami Lal Caste Vishnoi 0.126 Hec Sa 8 B 16 Jawahar Nagar Kishan Kumar s/o Mahaveer Prasad 0.056 Hec. Caste Agarwal Sa 2 A 8 Jawahar Nagar 0.506 Hec
					24	Private	Nehari	0.1243	
					16	Private	Nehari	0.1333	
					15	Private	Nehari	0.0002	
				63//	21	Private	Nehari	0.0550	Jay Deep S/o Amar Chand 3.794 Hec Balwant 2.238 Hec s/o Maniram Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Amar Chand Anamika d/o Omprakash B Hi B 4.016 Hec
					20	Private	Nehari	0.2366	Jay Deep S/o Amar Chand 3.794 Hec Balwant 2.238 Hec s/o Maniram Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Amar Chand Anamika d/o Omprakash B Hi B 4.016 Hec
					19	Private	Nehari	0.0491	
					13	Private	Nehari	0.0436	
					12	Private	Nehari	0.2332	
					11	Private	Nehari	0.1420	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehanama Jaydeep 5.147 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala
					9	Private	Nehari	0.1504	Balwant Singh Weld Maniram Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Balwant Singh Rehan-HDFC Bank Sriganganagar Murthin
					10/1	Private	Nehari	0.0008	Jay Deep S/o Amar Chand 3.794 Hec Balwant 2.238 Hec s/o Maniram Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Amar Chand Anamika d/o Omprakash B Hi B 4.016 Hec Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehanama Jaydeep 5.147 Hec Rehan-Corporation Bank Branch Netewala
					10/2	Private			Balwant Singh Weld Maniram
					8	Private	Nehari	0.2294	Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Balwant Singh Rehan-HDFC Bank Sriganganagar Murthin
					7	Private	Nehari	0.0384	Jay Deep S/o Amar Chand 3.794 Hec Balwant 2.238 Hec s/o Maniram Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Amar Chand Anamika d/o Omprakash B Hi B 4.016 Hec Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehanama Jaydeep 5.147 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala
					5	Private	Nehari + Khala	0.0335	Rajendra Kumar 0.006 Hec Hi s/o Hariram Koshyala Devi d/o Hariram 0.296 Hec Satish Kumar Weld Ratnaram 0.253 Hec Hi Amar Chand Weld Maniram 1.393 Hec Hi Caste Jat Sa Netewala Harbhajan Singh s/o Kartar Singh And Harpreet Singh s/o Gurdeep Singh Caste Kembosikh Ni 1 A Choti Balwant Singh Ki Dhani Sriganganagar 0.379 Hec Hi Khatedar Rehanama Amar Chand 1.393 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala
					4	Private	Nehari	0.2253	Jay Deep S/o Amar Chand 3.794 Hec Balwant 2.238 Hec s/o Maniram Randeep Singh s/o Balwant Singh Jaydeep s/o Amar Chand Anamika d/o Omprakash B Hi B 4.016 Hec Caste Jat Sa Deh Khatedar Rehanama Jaydeep 5.147 Hec Rehan Corporation Bank Branch Netewala
					3	Private	Nehari	0.1585	Balwant Singh Weld Maniram
					2	Private	Nehari	0.0017	Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Balwant Singh

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Rehan-HDFC Bank Sriganganagar Murthin
				46//	25	Private	Nehari	0.2208	Rajendra Kumar 0.006 Hec Hi s/o Hariram Koshyala Devi d/o Hariram 0.296 Hec Satish Kumar Weld Ratnaram 0.253 Hec Hi Amar Chand Weld Maniram 1.393 Hec Hi Caste Jat Sa Netewala Harbhajan Singh s/o Kartar Singh And Harpreet Singh s/o Gurdeep Singh Caste Kemb Niwasi 1 A Choti Balwant Singh Ki Dhani Sriganganagar 0.379 Hec Khatedar Rehanama Amar Chand 1.393 Hec Rehan Corp. Bank Branch Netewala
					24	Private	Nehari	0.1663	Balwant Singh Weld Maniram
					23	Private	Nehari	0.0030	Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Balwant Singh Rehan-HDFC Bank Sriganganagar Murthin
					16	Private	Nehari	0.1737	Rajendra Kumar 0.006 Hec Hi s/o Hariram Koshyala Devi d/o Hariram 0.296 Hec Satish Kumar Weld Ratnaram 0.253 Hec Hi Amar Chand Weld Maniram 1.393 Hec Hi Caste Jat Sa Netewala Harbhajan Singh s/o Kartar Singh And Harpreet Singh s/o Gurdeep Singh Caste Kembosikh Niwasi 1 A Choti Balwant Singh Ki Dhani Sriganganagar 0.379 Hi Khatedar Rehanama Amar Chand 1.393 Hec Rehan Corp. Bank Branch Netewala
					15	Private	Nehari	0.0065	
					17	Private	Nehari	0.0046	Balwant Singh Weld Maniram Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Balwant Singh Rehan-HDFC Bank Sriganganagar Murthin
				45//	21/1	Private	Nehari	0.0289	Rajendra Kumar 0.006 Hec Hi s/o Hariram Koshyala Devi d/o Hariram 0.296 Hec Satish Kumar Weld Ratnaram 0.253 Hec Hi Amar Chand Weld Maniram 1.393 Hec Hi Caste Jat Sa Netewala Harbhajan Singh s/o Kartar Singh And Harpreet Singh s/o Gurdeep Singh Caste Kembsikh Ni. 1 A Choti Balwant Singh Ki Dhani Sriganganagar 0.379 Hec Hi Khatedar Rehannama Amar Chand 1.393 Hec Rehan Corp. Bank Netewala Murthin
					21/2	Private			Shemsher Raviendra s/o Inderaj s/o Khertaram Caste Jat Sa Netewala Khatedar Rehanama Shemsher 1/3 Hi Rehan Bank of India Branch Sahuwala Murthin Rehanama Inderaj Rehan 3.971

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Hec. Ravinder 3.971 Hec. Corporation Bank Branch Netewala Murthin
					20	Private	Nehari	0.2161	Baldev Singh Santokh Singh S/o Kartar Singh B Hi B Caste Kembosikh Sa 1 A Choti Khatedar Rehanama Santokh Singh Rehan- SBBJ Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Baldev Singh Rehan Panjab And Sindh Bank Branch Sriganganagar Murthin
					19	Private	Nehari	0.0247	
					13	Private	Nehari	0.0208	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B 3.250 Hec Hi Rameshvari w/o Bholuram 0.734 Hec Hi Ta Zindgi Kharcha Gujara Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehanama Bhaniram 1.503 Hec Hi Rehan Sriganganagar Kshatriya Gramin Bank Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 1.083 Hec Rehan SBBJ Branch Kri V. Sriganganagar Murthin
					12	Private	Nehari	0.2109	
					11	Private	Nehari	0.1808	
					10	Private	Nehari	0.0830	
					9	Private	Nehari	0.1875	
					8	Private	Nehari	0.2055	
					7	Private	Nehari	0.0173	
					5	Private	Nehari + Khala	0.0140	
					4	Private	Nehari	0.1997	
					3	Private	Nehari	0.1939	
					2	Private	Nehari	0.0113	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B 3.250 Hec Hi Rameshvari w/o Bholuram 0.734 Hec Hi Ta Zindgi Kharcha Gujara Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehanama Bhaniram 1.503 Hec Hi Rehan Sriganganagar Kshatriya Gramin Bank Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 1.083 Hec Rehan SBBJ Branch Kri. V. Sriganganagar Murthin
				38//	25	Private	Nehari	0.1936	
					24	Private	Nehari	0.2000	
					23	Private	Nehari	0.0142	
					17/1	Private	Nehari	0.0174	Lal Chand Weld Khiyaram Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehan Ilhabad Bank Branch Sriganganagar
					17/2	Private			
					16	Private	Nehari	0.2058	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B 3.250 Hec Hi Rameshvari w/o Bholuram 0.734 Hec Hi Ta Zindgi Kharcha Gujara Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehanama Bhaniram 1.503 Hec Hi Rehan Sriganganagar Kshatriya Gramin Bank Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 1.083 Hec Rehan SBBJ Branch Kri. V. Sriganganagar Murthin
					15/1	Private	Nehari	0.0210	
					15/2	Private			
				39//	21	Private	Nehari	0.0112	Gurdeep Singh Weld Kartar Singh 2.276 Hec Hi Baldev Singh Santokh Singh s/o Kartar Singh 1.543 Hec Hi Caste Kambosikh Sa Sriganganagar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Badu Devi m/o Tara Chand 0.126 Hec Hi Vijay Kumar Krishan Kumar s/o Tara Chand B Hi B 0.506 Hec Hi Duli Chand 0.620 Hec Hi s/o Jaymalram Aatmaram 0.620 Hec Hi Ramsewroop 0.632 Hec Hi s/o Jeewanram Subhash 0.557 Hec Hi Deewan Chand 0.556 Hec Hi Devi Lal Com Kumar Sa 3 M L Hansraj Chunniram Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Singh s/o Basti Ram B Hi B 0.105 Hec Vishvjeet Singh s/o Dhanraj 0.063 Hec Caste Kumar Sa 4 M L Khatedar Rehanama Subhash Chand Dewan Chand s/o Devi Lal Aatmaram Ramsewroop Rehan Sriganganagar Keshtriya Gramin Bank Branch Khyaliram Murthin Rehanama Baldev Singh Rehan Panjab And Sindh Bank Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Duli Chand Vijay Kumar SBBJ Branch U. V Sriganganagar Murthin Rehanama Santokh Singh Rehan SBBJ Kri.Vi. Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Krishan Kumar 0.253 Hec Rehan SBBJ Branch Udyog Vihar Sriganganagar Murthin Rehanama Amar Singh Vishvjeet Singh Rehan MGB Gra. Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Ranjeet Kumar 0.0210 Hec Rehan Marudhar Gra. Bank Mahiyawali Mor. Gurdeep Singh 2.276 Hec. SBBJ K.V. Br. SGNR
					20	Private	Nehari	0.1872	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B Caste
					19	Private	Nehari	0.0086	Kumar Sa Netewala Khatedar
					13	Private	Nehari	0.0064	Rehanama Bhaniram 0.647 Hec
					12	Private	Nehari	0.1804	Hi. Rehan Sriganganagar
					11	Private	Nehari	0.1770	Kshatriya Gramin Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Devi Lal 0.647 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 0.646 Hec Hi Rehan SBBJ Kri. Vi. Branch Sriganganagar Murthin
					10	Private	Nehari	0.0249	Sultanram s/o Jawanram Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin
					9	Private	Nehari	0.1640	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B Caste
					8	Private	Nehari	0.1733	Kumar Sa Netewala Khatedar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Rehanama Bhaniram 0.647 Hec Hi. Rehan Sriganganagar Kshatriya Gramin Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Devi Lal 0.647 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 0.646 Hec Hi Rehan SBBJ Kri. Vi. Branch Sriganganagar Murthin
					7	Private	Nehari	0.0045	Sultanram s/o Jawanram Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin
					5	Private	Nehari	0.0029	
					4	Private	Nehari	0.1659	
					3	Private	Nehari	0.1260	Devi Lal Bhaniram Chunni Lal s/o Bholuram B Hi B Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehanama Bhaniram 0.647 Hec Hi. Rehan Sriganganagar Kshatriya Gramin Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Devi Lal 0.647 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin Rehanama Chunni Lal 0.646 Hec Hi Rehan SBBJ Kri. Vi. Branch Sriganganagar Murthin
					2	Private	Nehari	0.0291	Sultanram s/o Jawanram Caste Kumar Sa Netewala Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin
				18//	25	Private	Nehari	0.1581	Gangadhar 0.6495 Hec. Dolatram 0.5846 Hec. Surajbhan 0.5846 Hec. s/o Ramchand Satyawan 2.529 Hec Hi Krishan 1.265 Hec Hi Balram 1.265 Hec Hi s/o Gangadhar Sultan Weld Jawanaram 0.506 Hec Hi Caste Kumar Sa Netewala Brij Lal 0.032 Hec Banwari Lal Gopi ram 0.044 Hec S/o Shera Hi B Hi B Amar Singh 1.252 Hec Hi Rajendra Kumar 1.240 Hec Hi Ranjeet Kumar 1.240 Hec Hi Bastiram Hansraj Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Sigh s/o Bastiram Vishvjeet s/o Dhanraj 1.205 Hec Ravi Shankar S/o Balram 1.265 Hec. Caste Kumar Khetedar, Baldev Raj S/o Basti Ram 1.720 Hect. Caste Kumar Sa 4 M L Khatedar Rehanama Satyawan 2.529 Hec RMGB Bank Br. 4 ML Hi Balram 1.265 Hec Hi Krishan 1.265 Hec Rajendra Kumar 1.541 Hec Ranjeet Kumar 1.541 Hec Hi Rehan Sriganganagar Keshtriya Gramin Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Sulatan 0.506 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V. Sriganganagar
					24	Private	Nehari	0.1260	
					23	Private	Nehari	0.0337	
					17	Private	Nehari	0.0386	
					16	Private	Nehari	0.0880	
					15	Private	Nehari	0.0438	
				17//	21	Private	Nehari + Khala	0.0010	
					20	Private	Nehari + Khala	0.1501	
					19	Private	Nehari	0.0008	
					13	Private	Barani	0.0002	
					12	Private	Nehari	0.1416	
					11	Private	Nehari + Khala	0.0760	
					10	Private	Nehari + Khala	0.0494	
					9/1	Private	Barani	0.0630	
					9/2	Private	Nehari		
					8	Private	Barani	0.1329	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Murthin Rehanama Amar Singh 1.553 Hec Vishvjeet 1.205 Hec Rehan MGB Gramin Bank Branch Mahiyawali Rehanama Hansraj 0.301 Hec Rehan SBBJ U V Branch Sriganganagar Mor. Ravi Shankar 1.265 Hec. RMGB Bank Br. Mahiyawali .
					4	Private	Nehari + Khala	0.1239	Jasvinder Singh Harpal Singh Arvinder Singh s/o Jaswant Singh Caste Kembosikh Sa 1 A Choti B Hi B Khatedar
					3/1	Private		0.2399	Gangadhar 0.6495 Hi Dolatram 0.5846 Hi Surajbhan 0.5846 Hi s/o Ramchand Satyawar 2.529 Hec Hi Krishan 1.265 Hec Hi Balram 1.265 Hec Hi s/o Gangadhar Sultan Weld Jawanaram 0.506 Hec Hi Caste Kumar Sa Netewala Brij Lal 0.032 Hec Hi S/o Shera Banwari Lal Gopi ram 0.044 Hec Hi B Hi B Amar Singh 1.252 Hec Hi Rajendra Kumar 1.240 Hec Hi Ranjeet Kumar 1.240 Hec Hi Bastiram Hansraj Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Sigh s/o Bastiram Vishvjeet s/o Dhanraj 1.205 Hec Ravi Shankar S/o Balram 1.265 Hec. Baldev Ram S/o Basti Ram 1.720 Hec. Caste Kumar Sa 4 M L Khatedar Rehanama Satyawar 2.529 Hec Hi Balram 1.265 Hec RMGB Bank Br. 4ML Hi Krishan 1.265 Hec Rajendra Kumar 1.541 Hec Ranjeet Kumar 1.541 Hec Hi Rehan Sriganganagar Keshtriya Gramin Bank Branch Mahiyawali Murthin Mor. Ravi Shankar 1.265 Hec. RMGB Gr. Bank Br. Mahiyawali Rehanama Sulatan 0.506 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V. Sriganganagar Murthin Rehanama Amar Singh 1.553 Hec Vishvjeet 1.205 Hec Rehan MGB Gramin Bank Branch Mahiyawali Rehanama Hansraj 0.301 Hec Rehan SBBJ U V Branch Sriganganagar
					3/2	Private	Barani		
					2	Private	Nehari + Khala	0.0553	
				12//	25	Private	Barani	0.1150	Jasvinder Singh Harpal Singh Arvinder Singh s/o Jaswant Singh Caste Kembosikh Sa 1 A Choti B Hi B Khatedar
					24	Private	Nehari + Barani	0.0750	
					24/2	Private	Nehari		Gangadhar 0.6495 2/3 Hi Dolatram 0.5846 2/3 Hi Surajbhan 0.5846 2/3 Hi s/o Ramchand Satyawar 2.529 Hec Hi Krishan 1.265 Hec Hi Balram 1.265 Hec Hi s/o

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Gangadhar Sultan Weld Jawanaram 0.506 Hec Hi Caste Kumar Sa Netewala Brij Lal 0.032 Hec Banwari Lal Gopi ram 0.044 Hec S/o Shera Hi B Hi B Amar Singh 1.252 Hec Hi Rajendra Kumar 1.240 Hec Hi Ranjeet Kumar 1.240 Hec Hi Bastiram Hansraj Vijay Kumar Rajendra Kumar Ranjeet Kumar Amar Sigh s/o Bastiram Vishvjeet s/o Dhanraj 1.205 Hec Ravi Shankar S/o Balram 1.265 Hec. Baldevraj S/o Basti Ram 1.720 Hec. Caste Kumar Sa 4 M L Khatedar Rehanama Satyawani 2.529 Hec RMGB Bank Br. Mahiyawali Hi Balram 1.265 Hec Hi Krishan 1.265 Hec Rajendra Kumar 1.541 Hec Ranjeet Kumar 1.541 Hec Hi Rehan Sriganganagar Keshtriya Gramin Bank Branch Mahiyawali Murthin Rehanama Sulatan 0.506 Hec Hi Rehan SBBJ Branch U.V. Sriganganagar Murthin Rehanama Amar Singh 1.553 Hec Vishvjeet 1.205 Hec Rehan MGB Gramin Bank Branch Rehanama Hansraj 0.301 Hec Rehan SBBJ U V Branch Mahiyawali Sriganganagar Mor. Ravi Shankar 1.265 Hec. RMGB Bank Mahiyawali
					23	Private	Nehari	0.0615	Jasvinder Singh Harpal Singh
					17	Private	Nehari	0.0681	Arvinder Singh s/o Jaswant
					16	Private	Barani	0.0760	Singh Caste Kembosikh Sa 1 A
					15	Private	Nehari	0.0750	Choti B Hi B Khatedar
				13//	20	Private	Barani	0.1064	Gangadhar s/o Ram Chand Sa 6
					12	Private	Barani	0.0982	E Choti 0.266 Hec Hi Harkori
					11	Private	Barani	0.1140	w/o Nandram Rampratap Panna
					10	Private	Barani	0.0822	Lal Sitaram Ramsewroop
					9	Private	Barani	0.1390	Omprakash s/o Nandram Kamla
					8	Private	Barani	0.0903	Indra Chukla d/o Nandram B Hi
					4/1	Private	Barani	0.0630	B 2.079 Hec Ghanshyam,
					4/2	Private	Barani		Hansraj , Raghuveer Singh S/o
					3	Private	Barani	0.1770	Govind Ram B Hi B 1.720 Hec.
					2	Private	Barani	0.0897	Khatedar Nirmla d/o Santkala
									Om prakash s/o Santkala d/o
									Govindram B Hi B 0.297 Hec
									Com Sa Deh Khatedar Hajriram
									Rameshver Lal Ram Chand s/o
									Tansukhram B Hi B 2.080 Hec
									Fulawanti w/o Ramchand 3.587
									Hec Mohra Devi w/o
									Shyokaranram 0.430 Hec Para
									Devi w/o Bhadarram 0.430 Hec
									Caste Kumar Jasvinder Singh
									Harpal Singh Arvinder Singh s/o
									Jaswant Singh 4.132 Hec Caste
									Kambosikh Sa 1 A Choti
									Khatedar Rehanama Fulawanti

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									3.587 Hec Rehan Union Bank of India Branch Sriganganagar Murthin Rehanama Ram Chand 1.040 Hec Rehan MGB Gramin Bank Branch Sriganganagar Murthin Mor. Dhanraj 0.594 Hect. Mor Rajasthan Marudhar Gr. Bank Br. 4 ML
			(10) 4 M L	60//	25/1	Private	Nehari	0.0510	Pholwanti w/o Ramchandra Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					24	Private	Nehari	0.1900	Krishan Kumar Weld Roopram Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					23	Private	Nehari	0.0976	Rehan SBBJ Branch Udyog
					17	Private	Nehari	0.1058	Vihar Sriganganagar Murthin
					16	Private	Nehari	0.2020	
					15	Private	Nehari	0.1144	Rameshwer Weld Roopram Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan SBBJ Branch Udyog Vihar Ganganagar Murthin
				59//	20	Private	Nehari	0.0510	Pholwanti w/o Ramchandra Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					12	Private	Nehari	0.0620	Kashiram 0.046 Hec Hariram 1.943 Hec s/o Prabhuram Girdhari Lal Vijay Singh Sandeep Kumar s/o Rajaram Sushila d/o Rajaram Har Char B Hi B 0.341 Hec Caste Nai Kishan Chand s/o Shyamaram 1.602 Hec Caste Bajaj Sa Kaliyam Shimla Devi Urf Sima Devi w/o Rajaram 0.582 Hec Caste Jat G H Stateas Pvt.Ltd Sriganganagar Jariye Director Ashok Kumar s/o Surajbhan Caste Agarwal Sa Sangriya Hanumangarh 1.896 Hec Khatedar
					11	Private	Nehari	0.2280	Santram Jay Chand Ramji Lal S/o Badri Prasad Caste Kumar B Hi B Khatedar Sa Deh
					10	Private	Nehari	0.1233	Krishan Kumar Weld Roopram Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan SBBJ Branch Udyog Vihar Sriganganagar Murthin
					9/1	Private	Nehari + Khala	0.1260	Subhash s/o Sahabram Caste Jat Sa 1 G Choti Khatedar Rehan MGB Gr. Bank Branch Sriganganagar Murthin
					8	Private	Nehari	0.0557	A H Developers Pvt.Ltd Jirye Director Vimla Devi Shah d/o Bihari Lal Caste Agarwal Sa 3 I 9 Jawahar Nagar Sriganganagar Khatedar
					4	Private	Nehari + Khala	0.0498	Heera Devi Fot- Sahiram Chananram Rampratap Laxmi Chand Ramkumar Krishan Lal s/o Jay Lal B Hi B 0.0695 Hec Santra Devi Vimla Devi d/o Jay Lal B Hi B 0.0025 Hec Caste

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Kumar Bheraram Jagan Lal s/o Meghraj B Hi B 0.072 Hec Sermal Urf Weld Kashiram 0.071 Hec And Birbal Weld Kashiram Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					3/1	Private	Nehari + Khala	0.2370	Sarbatu Devi w/o Balwantram 1.180 Hec Hi Maina Devi w/o Balram 1.180 Hec Hi Balram Weld Manful 1.180 Hec Hi Caste Jat Manful 0.063 Hec Hi s/o Bhagiram Jesaram 0.047 Hec Hi Kheatpal 0.256 Hec s/o Jagmal Caste Jat Hajari Momanram 0.063 Hec Hi s/o Bhijaram Shyokaran 0.032 Hec Hi s/o Bastiram Manful 0.0253 Hec Hi Paliram 0.126 Hec s/o Kheatpal Com Jat Sa Deh Khatedar Badu Devi W/o Manfool, Rajpal, Sandeep S/o Manfool, Seema Devi D/o Manfool B Hi B 0.063 Hec.Muti Devi W/o Jagram, Balwant Ram, Papu Ram S/o Jagram,Sukhi Devi D/o Jagram B Hi B 0.063 Hec. Badu devi W/o Manfool Rajpal, Sandeep S/o Manfool 0.021 Hec. Santro devi, Guddi Devi D/o Bhani Ram 0.042 Hec.Gaumti Devi W/o Tansukh, Prathvi Ram, Dhanraj S/o Tansukh, Sumitra Devi D/o Tansukh 0.031 Hect. Hardevi W/o Sultan, Indra Mukhi, Raj Mukhi D/o Sultan B Hi B 0.0472 Hect. Sharda Devi W/o Manoj Kumar Nitin S/o Manoj Kumar Minikshi, Jai Laxmi D/o Manoj Kumar B Hi B 0.0158 Hect. Maina Devi W/o Nathuram Sushila devi Neeru D/o Nathu Ram B Hi B 0.063 Hec.
					3/2	Private	Nehari		Heera Devi Fot-Sahiram Chananram Rampratap Laxmi Chand Ramkumar Krishan Lal s/o Jay Lal B Hi B 0.0695 Hec Santro Devi Vimla Devi d/o Jay Lal B Hi B 0.0025 Hec Caste Kumar Bheraram Jagan Lal s/o Meghraj B Hi B 0.072 Hec Sermal Urf Weld Kashiram 0.071 Hec And Birbal Weld Kashiram Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					2	Private	Nehari + Khala	0.1323	Subhash s/o Sahabram Caste Jat Sa 1 G Choti Khatedar Rehan MGB Gr. Bank Branch Sriganganagar Murthin
				56//	25	Private	Nehari	0.0380	Krishi Ke Liye Uplabha Bhumiya Kabilkast Nyayalay

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Aadesh Nagar Vikas Neyas Sriganganagar
					24	Private	Nehari	0.2336	Maniram Jetaram Puran Chand Hariram s/o Hanuman B Hi B Caste Kumar Sa 3 ML Gair Khatedar
					23/1	Private	Gairmumkin Dhani	0.1410	
					23/2	Private	Nehari		
					18	Private	Nehari	0.0007	
					17	Private	Nehari	0.1495	
					16	Private	Nehari	0.1640	
					15	Private	Nehari	0.1571	
					14	Private	Nehari	0.0016	
					6	Private	Nehari	0.0027	
				57//	1	Private	Nehari	0.0025	Rajpal Sandeep Kumar s/o Manphol Caste Jat Sa Deh B Hi B 12.134 Hec Meera w/o Bhaniram 0.025 Hec Khatedar Rehan Bank of India Branch Sahuwala Murthin
					2	Private	Nehari	0.0380	Hansraj Bahadar Weld Naryan Mahajan Sa Sriganganagar 0.102 Hec Hi Pannaram Weld Asharam 0.038 Hec Hi Caste Jat Sa Deh Khatedar
					11	Private		0.0380	
					10/1	Private	Nehari	0.1623	Rajpal Sandeep Kumar s/o Manphol Caste Jat Sa Deh B Hi B 12.134 Hec Meera w/o Bhaniram 0.025 Hec Khatedar Rehan Bank of India Branch Sahuwala Murthin
					10/2	Private			Jesa Ram S/o Jagmal Ram Jat Sa 4 ML
					10/3	Private			Hansraj Bahadar Weld Naryan Mahajan Sa Sriganganagar 0.102 Hec Hi Pannaram Weld Asharam 0.038 Hec Hi Caste Jat Sa Deh Khatedar
					20	Irriagation Deptt.	Nehar	0.0390	Govt. of Rajasthan
					9	Irriagation Deptt.	Nehar	0.2269	
			(11) 3 ML	45//	23	Irriagation Deptt.	Nehar	0.1097	Govt. of Rajasthan
			(12) 17 ML	34//	12	Private	Barani	0.0120	Rameshvari D/o Kesar Caste Nayak Sa Deh Khatedar 0.012 Hec.
					8/1	Private	Barani	0.0444	Chananram s/o Mangal Chand Caste Valmiki Ni Ghmudwali Te. Padampura Distt Sriganganagar 0.0126 Hec.
					8/2	Private			
					4/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0250	Govt. of Rajasthan
					4/2	Private	Gairmumkin	0.0510	Richpal s/o Kanaram Caste Nayak 0.050 Hec Ni 3 E Choti Sriganganagar Khatedar Chananram s/o Mangal Chand Caste Valmiki 0.072 Hec Ni Ghumadwali Te. Padampura Distt Sriganganagar Khatedar Teja d/o Kesar Caste Nayak 0.093 Hec Sa Deh Khatedar
					3	Private	Barani	0.0130	Chananram s/o Mangal Chand

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Caste Valmiki Ni Ghmudwali Te. Padampura Distt Sriganganagar
				16//	25	Private	Nehari	0.1397	Jasram S/o Ram Chandra Caste
					24	Private	Nehari	0.1260	Kumar Kila No-24 0.025 Hec
					24/2				Baldev Singh Urf Sukhdev
					17/1	Private	Nehari	0.0130	Singh s/o Sharwan Singh 0.1010
					16	Private	Nehari	0.2162	Hec Caste Jatsikh Sa Deh
					15	Private	Nehari	0.0093	Khatedar
				17//	21	Private	Nehari	0.0080	Harmel Singh s/o Sharwan
					20	Private	Nehari	0.2149	Singh Caste Jatsikh Sa Deh
					19	Private	Nehari	0.0701	Khatedar
					15	Private	Nehari	0.0001	Upkar Singh s/o Avtar Singh
									Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar 0.253 Hect.
					14/1	Private	Nehari	0.0623	Baldev Singh Urf Sukhdev
									Singh s/o Sharwan Singh Caste
					14/2	Private			Jatsikh Sa Deh Khatedar 0.240 Hec.
									Upkar Singh s/o Avtar Singh
									Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar 0.013 Hec.
					13	Private	Nehari	0.1855	Baldev Singh Urf Sukhdev
					12	Private	Nehari	0.2450	Singh s/o Sharwan Singh Caste
					11	Private	Nehari	0.1314	Jatsikh Sa Deh Khatedar
					9	Private	Nehari	0.0300	Upkar Singh s/o Avtar Singh
					8	Private	Nehari	0.1518	Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar
					7	Private	Nehari	0.2457	
					6	Private	Nehari	0.2052	
					5	Private	Nehari	0.1194	
					4	Private	Nehari	0.0226	
				18//	10	Private	Nehari + Khala	0.1081	Harmel Singh s/o Sharwan
					9	Private	Nehari	0.0247	Singh Caste Jatsikh Sa Deh
					5	Private	Barani	0.0502	Khatedar
					4	Private	Barani	0.1254	Upkar Singh s/o Avtar Singh
					3	Private	Barani	0.1997	Caste Jatsikh Sa Deh Khatedar
					2	Private	Nehari	0.2512	
					1	Private	Nehari + Khala	0.2116	
				14//	25	Private	Barani	0.2483	Duli Chand Virendra Kumar
									Pisran Dolatram Caste Kumar Sa
					24/1	Private	Barani	0.1891	7 E Choti Khatedar
					24/2	Private			Desh Bandhu Vishv Bandhu
									Pisran Hardayal Caste Khatri Sa
									Deh B Hi B 0.063 Hec.
					23	Private	Nehari	0.1147	Duli Chand Virendra Kumar
					22	Private	Nehari	0.0398	Pisran 1.613 Hec Virendra
					16	Private	Nehari	0.0175	Kumar 2.941 Hec Pisran
									Dolatram Gangadhar Dolatram
									Surajbhan Pisram Ramchandra
									B Hi B 1.265 Hec Caste Kumar
									Sa Deh Khatedar
				19//	1/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0007	Govt. of Rajasthan
					1/2	Private	Barani		Gurdev Singh s/o Puran Singh
									Caste Kembosikh Sa Deh
									Khatedar Rehan S B B J Branch

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									U.Vi Sriganganagar Murthin
				13//	23/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0139	Govt. of Rajasthan
					23/2	Private	Barani		Krishan Lal s/o Taruram Caste Nayak Sa Deh Khatedar Rehan 2.997 Hec SBBJ Udayg Vihar Sriganganagar
					22/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0130	Govt. of Rajasthan
					22/2	Private	Barani	0.1046	Dolatram s/o Ramchandra Com Kumar Sa 7E Choti Khatedar
					21/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0130	Govt. of Rajasthan
					21/2	Private	Barani	0.2059	Dolatram s/o Ramchandra Com Kumar Sa 7E Choti Khatedar
					20/1	Government	Gairmumkin Rasta	0.0130	Govt. of Rajasthan
					20/2	Private	Barani	0.0902	Dolatram s/o Ramchandra Com Kumar Sa 7E Choti Khatedar Krishan Lal s/o Taruram Caste Nayak Sa Deh Khatedar Rehan 2.997 Hec SBBJ Udayg Vihar Sriganganagar
					19	Private	Barani	0.2128	
					18	Private	Barani	0.2328	
					17	Private	Barani	0.0987	
					16	Private	Barani	0.0007	
					15	Private	Barani + Gairmumkin Commercial	0.1753	
					14	Private	Barani + Gairmumkin Commercial	0.2361	
					13	Private	Barani	0.0998	
					12	Private	Barani	0.0026	Yusuf Fajaldin Mandukha s/o Nurdin Caste Chipa Musalman Sa Deh Khatedar
					7	Private	Barani	0.0292	
					6	Private	Barani + Gairmumkin Commercial	0.2009	
					11	Private	Barani	0.0142	
				12//	10	Private	Barani	0.2062	Girdhari Lal S/o Ram Chandra Caste Kumahar 0.064 Hec., Jesa Ram S/o Ram Chandra Kumahar 0.024 Hec., Yusuf Fajaldin Mandukha s/o Nurdin Caste Chipa Musalman Sa Deh Khatedar 0.022 Hec.
					9	Private	Barani	0.0210	
					3/1	Private	Barani	0.0113	
					2	Private	Barani	0.2032	Yusuf Fajaldin Mandukha s/o Nurdin Caste Chipa Musalman Sa Deh Khatedar
					1	Private	Barani	0.1876	
				4//	21/1	Private	Nehari	0.0124	Mahendra Kor w/o Chuhad Singh Harvinder Singh s/o Chuhad Singh Com Jatsikh Sa Deh Khatedar Rehan B O I Branch Sahuwala Murthin
					21/2	Private	Khala		
					19	Private	Nehari	0.0375	
			(13) 11 L N P	51//	23	Private	Nehari	0.1631	Sanni Garg s/o Surendra Garg Caste Agarwal Ni 3 G J 23 Jawahar Nagar Sriganganagar
					22	Private	Nehari	0.2070	Jamna Devi w/o Hajariram Vimla Devi w/o Prithviram Sanjay Suryaprakash s/o Prithviram Rajpal Badri Prasad s/o Hajariram Caste Jat Sa Deh

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Gair Khatedar
					18/1	Private	G.M Industrial	0.2428	Mahendrapal s/o Husain Lal Com Khatri Sa 579 Vinoba Basti Sriganganagar Khatedar 0.115 Hec.
					18/2	Private	Nehari		Vinod Kumar s/o Liluram Pravin Devi w/o Vinod Kumar B Hi B Caste Agarwal Sa Deh Sriganganagar Khatedar 0.138 Hec.
					17/1	Private	G.M Industrial	0.0800	Mahendrapal s/o Husain Lal Com Khatri Sa 579 Vinoba Basti Sriganganagar Khatedar 0.115 Hec.
					17/2	Private	Nehari		Vinod Kumar s/o Liluram Pravin Devi w/o Vinod Kumar B Hi B Caste Agarwal Sa Deh Sriganganagar Khatedar 0.113 Hec.
					15/1	Private	Nehari	0.0045	Sanjay Garg S/o Bajrang Lal Garg Caste Agrawal Sa 133 Agrasen Nagar 0.016 Hec. Ram Kumar s/o Aadram Caste Jat Sa Deh Khatedar Hi 0.1610 Hec Hi Rahan IDBI SGNR
					15/2	Private	Gairmumkin Sadak		Riico Limited Sriganganagar
					14	Private	Nehari	0.2183	Ram Kumar S/o Aadram Caste Jat Sa Deh 0.230 Khatedar Rahan IDBI SGNR Sanjay Garg S/o Bajrang Lal Garg Caste Agrawal Sa 133 Agrasen Nagar 0.023 Hec.
					13/1	Private	Nehari	0.1207	Gair Khatedar
					13/2	Private			Ram Kumar s/o Aadram Caste jat Sa Deh Khatedar Mor. IDBI SGNR
					8	Private	Nehari	0.0099	
					7	Private	Nehari + Gairmumkin Commercial	0.2317	Dheeraj Singla s/o Surendra Singla Hi 0.083 Hec Caste Agarwal Sa 79 G Block Sriganganagar Khatedar OP Motors Pvt. Ltd. 479 Purani Civil Hospital Road Sirsa C/o Director Ashwani Bathla S/o Om Prakash Bathla Caste Badhla Sa 8 C Block Sirsa 0.014 Hec. Naresh Chabada s/o Ramnaryan Chabada Caste Arora Vinoba Basti Ankur Manglani s/o Ramesh Kumar Manglani Caste Arora Sa 22 H Block Sriganganagar Hi 0.089, Daljeetsingh S/o Richpal Singh Caste Combose Sa Chack 2 E Choti 0.010 Hec., Sanjay Garg S/o Bajrang Lal Garg Caste Agrawal Sa 133 Agrasen Nagar 0.057 Hec.
					6/1	Riico	Gairmumkin Sadak	0.0297	Riico Pvt. Limited Sriganganagar
					6/2	Private	Nehari+ Commercial	0.0132	Dheeraj Singla s/o Surendra Singla Hi 0.064 Hec Caste

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Agarwal Naresh Chabada s/o Ramnaryan Chabada Caste Arora Sa 368 Vinoba Basti Ankur Manglani s/o Ramesh Kumar Manglani Caste Arora Sa 22 H Block Sriganganagar Hi 0.062 OP Motors 0.011 Hec., Sajay Garg S/o Bajrang lal Caste Agrawal Sa 133 Agrasen Nagar 0.040 Hec.
					5/1	Private	G.M Commercial	0.0662	OP Motors 0.0177 Hec.,
					5/2	Riico	G.M Sadak		Riico Pvt Limited Sriganganagar
					4	Private	G.M Commercial	0.1339	OP Motors 0.228 Hec., Daljeet Sing S/o Richhpal Singh Caste Combose Sa 2 E Choti 0.025 Hec.
			(14) 16 M L	39//	25/1	Private	Nehari + Residencial	0.0240	Gurmale Kour W/o Richpal Singh Kambo Sikh Sa 2 E Choti Khatedar Rehan UCO Bank Branch Henawali
					25/2	Riico	G.M Sadak	0.0760	Riico Pvt Praivate Limited Sriganganagar
					24	Private	Nehari + Residencial	0.0483	Gurmale Kor w/o Richpal Singh Kambo Sikh Sa 2 E Choti Khatedar Rehan Uko Bank Branch Hirawali
					17	Private	Nehari	0.0012	Gurmale Kor w/o Richpal Singh Kambo Sikh Sa 2 E Choti 0.058 Hec Khatedar Rehan UCO Bank Branch Hirawali. Jagdeesh Kumar Chabada S/o Deshraj Caste Arora Sa Chunawarh Vikramjeet S/o Mulakhraj Caste Arora Sa Shankar Colony, Sanjay Gupta S/o Leeladhar Caste Agarwal Sa 5 C Block, Aashish Goyal S/o Rajkumar Goyal Caste Agarwal Sa 39 Model Colony Sriganganagar 0.003 Hec Jagdish Kumar Chabra s/o Deshraj Sa Chunawat 0.132 Hec. Vikramjeet s/o Mujlakraj 0.145 Hect. Kiran Kumar s/o Mulak raj 0.145 Hec. Caste Arora Sa Shankar Colony, Sunil S/o Prem raj 0.106 Hect. Cste Agrawal 2096 Agrasen Nagar Sriganganagar. Deepak Kumar s/o Puroshotam Lal Caste Agrawal Sa 303 Agrasen Nagar Sriganganagar Khatedar 0.047 Hec. Hi.
					16/1	Riico	G.M Sadak	0.0760	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					16/2	Private	Nehari	0.1587	Jagdish Kumar Chabra s/o Deshraj Sa Chunawat 0.132 Hec. Vikramjeet s/o Mujlakraj 0.145 Hect. Kiran Kumar s/o Mulak raj 0.145 Hec. Caste Arora Sa Shankar Colony, Sunil S/o Prem raj 0.106 Hect. Cste Agrawal

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									2096 Agrasen Nagar Sriganganagar. Jagdeesh Kumar Chabada S/o Deshraj Caste Arora Sa Shankar Colony, Sanjay Gupta S/o Leeladhar Caste Agarwal Sa 5 C Block, Aashish Goyal S/o Ramkumar Goyal Caste Agarwal Sa 39 Model Colony Sriganganagar Gurmale Kor w/o Richpal Singh Kambosikh 0.041 Hec. Sa 2 E Choti Khatedar Rehan Uko Bank Branch Hirnawali.
					15/1	Riico	G.M Sadak	0.0760	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					15/2	Private	Khala + G.M Commercial	0.0002	Pradeep Kumar s/o K B Rai D D Gupta s/o Ramdutt B Hi B Caste Agarwal Sa Ganganagar
					6/1	Riico	G.M Sadak	0.0743	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					6/2	Private	G.M Commercial		Banta Singh s/o Bachan Singh Caste Kambosikh Sa Deh 0.177 Hec
					5/1	Riico	G.M Sadak	0.0739	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					5/2	Private	Nehari + Khala + Commerical		Gurmaje Kor w/o Jaswant Singh Harpreet Singh s/o Jaswant Singh Navpreet Kor Gangandeep Kor d/o Jaswant Singh B Hi B 0.046 Hec Banta Singh s/o Bachan Singh Caste Kambosikh Sa Deh 0.131 Hec
				38//	21	Riico Private	Gairmumkin Sadak Nehari	0.0162	Riico Pvt Limited Sriganganagar Sohan Lal s/o Fusaram Caste Brahman Sa Deh Gair Khatedar
					20	Riico Private	Gairmumkin Sadak Nehari	0.0724	Riico Pvt Limited Sriganganagar Sahabram s/o Fusaram Caste Brahman Sa Deh Gair Khatedar Sohan Lal s/o Fusaram Caste Brahman Sa Deh Gair Khatedar
					11	Riico Private	Gairmumkin Sadak Nehari	0.0760 0.0003	Riico Pvt Limited Sriganganagar Sahabram s/o Fusaram Caste Brahman Sa Deh Gair Khatedar
					10	Riico Private	Gairmumkin Sadak Nehari	0.0760 0.0004	
					1	Riico Private	Gairmumkin Rasta Nehari+ Khala	0.0760 0.0010	Riico Pvt Limited Sriganganagar Vijay Kumar Urf Vinod Kumar S/o Ram Kumar Pushpa Devi W/o Vijay Kumar Urf Vinod Kumar Caste Agrawal B Hi B Sa 1/370 Housing Board Sriganganagar
				35//	21/1	Riico	Gairmumkin Sadak	0.0760	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					21/2	Private	Nehari + Khala	0.0009	Gajan Singh s/o Chatar Singh Caste Kambosikh Sa Deh
					20/1	Private	Nehari + Khala	0.0758	Khatedar Reahn Panjab National Bank Nai Krishi Mandi
					20/2	Riico	Gairmumkin		Riico Limited Sriganganagar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Sadak		
					11/1	Riico	Gairmumkin Sadak	0.0754	
					11/2	Private	Nehari + Khala		Gajan Singh s/o Chatar Singh Caste Kambosikh Sa Deh
					10/1	Private	Nehari + Khala	0.0754	Khatedar Reahn Panjab National Bank Nai Krishi Mandi
					10/2	Riico	G.M Sadak		Riico Limited Sriganganagar
					1/1	Riico	G.M Sadak	0.0755	
					1/2	Private	Nehari + Khala		Gajan Singh s/o Chatar Singh Caste Kambosikh Sa Deh
									Khatedar Reahn Panjab National Bank Nai Krishi Mandi
				34//	25	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0730	Riico Limited Sriganganagar Deendayal S/o Radahakrishan Sharda W/o Deendayal 1/8 Hi Vinod Kumar S/o Radakrishan Premrata W/o Vindo Kumar 1/8 Hi Shyam Lal S/o Kedar Nath Meera W/o Shyam Lal 1/8 Hi Ni 43 N Block Ajay S/o Phol Chand Sanju W/o Ajay 1/8 Hi Ni 282 Agarsen Nagar Anjana W/o Sumit Mori Ni Lakadmandi 1/8 Hi Caste Agarwal Chandresh S/o Ram Chandra Neelam W/o Chandresh 1/8 Hi Caste Oswal Ni 34 K Block Arjundev S/o Khan Chand 1/8 Hi Caste Arora Ni W-5 Water Works Colony Sriganganagar Jitendra W/o Manjeet Caste Chimni 1/8 Hi Ni SSB Road Sriganganagar 0.060 Hec Krishan Kumar S/o Gopiram Faminder Nath S/o Deshraj 0.117 Hec Caste Agarwal Sa 6 Gangor Nagar Sriganganagar
					16	Riico Private	Gairmumkin Sadak Nehari	0.0744	Riico Limited Sriganganagar Hardik Agro Trade Pvt.Ltd Sriganganagar Jariye Director Manoj Kumar Gupta s/o Prem Kumar Gupta 0.138 Hec Caste Agarwal 4 A 15 Jawahar Nagar Sriganganagar Krishan Kumar s/o Gopiram Faminder Nath s/o Deshraj 0.039 Hec Caste Agarwal Sa 6 Gangore Nagar Sriganganagar
					15	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0743	Riico Limited Sriganganagar Renu Agarwal w/o Pradeep Agarwal Sa 6 E 5 Jawahar Nagar Sriganganagar 0.158 Hec Hardik Agro Trade Pvt.Ltd Sriganganagar Jariye Director Manoj Kumar Gupta s/o Prem Kumar Gupta Caste Agarwal 4 A 15 Jawahar Nagar Sriganganagar 0.019 Hec
					6	Riico	G.M Sadak	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						Private	Nehari		Maneesh Kumar s/o Tara Chand Caste Agarwal Sa 19 G Block Sriganganagar Khatedar, Manjri Gupta W/o Ravi Kiran D/o Tarachand Sadul Colony, Bikane 0-0054 Hect
					5	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					5/2	Riico	G.M Sadak		Majri Gupta W/o Ravi Kiran Gupta D/o Tara Chand Caste Agarwal Sa Sardul Colony Bikaner Khatedar 0.073 Hec Majri Gupta W/o Ravi Kiran Gupta D/o Tara Chand Caste Agarwal Sa Sardul Colony Bikaner Khatedar 0.0054Hec
					5/3	Private	Nehari		Momanram s/o Pokerram Caste Kumar Sa 2 ML Sriganganagar Khatedar 0.010 Hec
				30//	25	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar Sukhde Chayal S/o Fusaram Chayal Caste Mochi Bikaner
					16	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar Harjinder Singh S/o Karnel Singh Caste Mejhabi Sa 5 L N P 0.177 Hec. Khatedar
					15	Riico Private	G.M Sadak G.M. Commercial	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar
					6	Riico Private	G.M Sadak G.M. Commercial	0.0753	Shankar Lal s/o Jeewanram Caste Meghwal Sa Aryan Te. Karanpur Khatedar Rehan Bank of Badoda Branch Sriganganagar Murthin
					5	Riico Private	G.M Sadak Nehari	0.0754	
				29//	21/1	Private	G.M Commercial	0.0754	Indrarani w/o Omprakash Caste Arora Nivasi 11 Tilk Nagar Sriganganagar 0.089 Hec
					21/2	Riico	G.M Sadak		Riico Pvt Limited Sriganganagar 0.076 Hect.
					21/3	Private	G.M Commercial + Khala		Sudesh Pahuja H U F S/o Omprakash Caste Arora Sa 11 Tilak Nagar Sriganganagar
					20/1	Riico	G.M Sadak	0.0753	Riico Pvt Limited Sriganganagar 0.076 Hect.
					20/2	Private	Nehari + Khala		Yuvraj Angad Singh s/o Mahendrapal Singh Caste Arora Sikh Sa 7 A 7 Jawahar Nagar Sriganganagar Hi 0.177 Hec
					11/1	Riico	G.M Sadak	0.0754	Riico Pvt Limited Sriganganagar 0.076 Hect.
					11/2	Private	Nehari + Khala +G.M Commercial		Yuvraj Angad Singh s/o Mahendrapal Singh Caste Arora Sikh Sa 7 A 7 Jawahar Nagar Sriganganagar Hi 0.74 Hec Barendra Kor W/o Kartar Singh Caste Arora Sikh Sa 4 M L Nimbawali Khatedar 0.103 Hec
					10/1	Riico	G.M	0.0753	Riico Pvt Limited Sriganganagar

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Sadak		0.076 Hect.
					10/2	Private	Nehari + Khala		Birendra Kaur d/o Kartar Singh Caste Arora Sikh Nivasi 4 ML Nimmawali Khatedar 0.177 Hec
					1/1	Riico	G>M Sadak	0.0755	Riico Pvt Limited Sriganganagar 0.076 Hect.
					1/2	Private	Nehari + Khala		Birendra Kaur d/o Kartar Singh Caste Arora Sikh Nivasi 4 ML Nimmawali Khatedar 0.088 Hec
			(15) 15 M L	17//	21	Government Government Private	G.M Sadak G.M Rasta Nehari	0.0760 0.0250 0.0565	Govt. of Rajasthan Govt. of Rajasthan Nathuram s/o Shreeram 1.164 Hec Jagram 0.664 Hec Prakash Chand Mohan Lal Satpal
					20	Government Government Private	G.M Sadak G.M Rasta Nehari	0.0750 0.0260 0.0282	Motiram s/o Sukhram Kalawanti Basnti d/o Sukhram 0.829 Hec B Hi B Heera Devi w/o Budhram 0.833 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehanama Nathuram 1.164 Hec MGB Gra. Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar Murthin
					11	Government Government	G.M Sadak G.M Rasta	0.0760 0.0250	Govt. of Rajasthan Govt. of Rajasthan
					10	Government	G.M Sadak	0.0239	Govt. of Rajasthan
				16//	25	Greph Deptt. (Central Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0880 0.0565	Gairmumkin Sadak Suraksha Mantralay And Bhartiya Sena Sadak Sangthan. Sateydev Weld Asharam Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar Murthin
					16	Greph Deptt. (Central Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0890 0.0838	
					15	Greph Deptt. (Central Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0880 0.1348	
					7	Private	Nehari	0.0453	Sataydev Urf Satnam s/o Asharam Caste Kumar Sa Deh Khatedr Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar
					6	Greph Deptt. (Central Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0890 0.1610	Gairmumkin Sadak Suraksha Mantralay And Bhartiya Sena Sadak Sangthan. Sateydev Weld Asharam Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar Murthin
					5	Greph Deptt. (Central Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0880 0.1640	
					4	Private	Nehari	0.1295	Satyadev Urf Satnam s/o Asharam Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra. Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar
				13//	25	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0880 0.1130	Govt. of Rajasthan Sahiram s/o Hariram 1.049 Hec Sita Devi w/o Sahiram 0.253 Hec Caste Kumar Sa 6 L N P Khatedar Rehanama Sahiram

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									1.049 Hec And Sita Devi 0.253 Hec Rehan Bank of India Branch Suratgarh Road Sriganganagar Murthin
					24/1	Private	Nehari	0.1924	Imi Lal s/o Rajaram Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rahan Mor. MGB Gr. Bank Branch 6 LNP
					24/2	Private			Banwari s/o Patram 1.296 Hec
					18/1	Private	Nehari	0.0239	Caste Kumar Sa 6 LNP Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin Ram Kumar s/o Banwari 0.538 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar SBBJ Branch Udyog Vihar Sriganganagar
					18/2	Private			Imi Lal s/o Rajaram Caste
					17/2	Private	Nehari	0.2516	Kumar Sa Deh Khatedar Mor MGB Gr. Bank Branch 6 LNP
					17/1	Private			Ram Kumar S/I Banwari Lal Caste Kumahar Sa Deh Khatedar
					16	Private	Nehari	0.0393	Jawahar Lal s/o Sh Sukhram Caste Kumar Sakin 6 L N P Khatedar Rehan Khestriya Gramin Bank Branch Khayliwala
					14	Private	Nehari	0.2192	Imi Lal s/o Rajaram Caste
					13	Private	Nehari	0.0945	Kumar Sa Deh Khatedar Mor
					8	Private	Nehari	0.1669	MGB Gr. Bank Branch 6 LNP
					7	Private	Nehari	0.1472	
					2	Private	Nehari	0.0059	Banwari s/o Patram 1.296 Hec
					3/1	Private	Nehari	0.2454	Caste Kumar Sa 6 LNP Khatedar Rehan SBBJ Branch U.V Sriganganagar Murthin Ram Kumar s/o Banwari 0.538 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar SBBJ Branch Udyog Vihar Sriganganagar
					3/2	Private			Jawahar Lal s/o Sukhram 1.122
					4	Private	Nehari	0.0735	Hec Rehan Khestriya Gramin Bank Branch Khaliwala Chando w/o Late Shree Sahiram 0.164 Hec Krishan s/o Sahiram 0.498 Hec Subhash s/o Imi Lal 0.619 Caste Kumar Sa Panniwali Jatan T. Sadulshehar Rehan 0.619 Hec MGB Gra Bank Branch Panni Wali Gulamfarid s/o Aladad Caste Musalman 0.165 Hec Maya Devi w/o Rohitash Dharmpal s/o Ghadsiram Caste Yadav 1.985 Hec Sa 6 L N P Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala Sriganganagar Kedish s/o Suresh Kumar Sayam s/o Sarjeet Kumar Ankur s/o Sandeep Kumar Caste Vishnoi 0.121 Hec B Hi B Sa 8 L N P Aehmadin Aladita Abdulgani s/o Aladata Kha 0.170 Hec B Hi B Caste Musalman Gurdev Kor w/o Ram Lal 0.506 Hec Caste

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Kumar Sa Kaluwalla Khatedaran
				8//	1	Private	Nehari + Khala	0.1716	Sahiram s/o Rawataram 2.360 Hec Moman Maniram Palaram
					2	Private	Nehari	0.1745	Aaduram Ram Kumar s/o
					8	Private	Nehari	0.0205	Gopiram B Hi B 1.600 Hec
					9	Private	Nehari	0.2489	Amar Chand s/o Bhagirath 0.235 Hec Prithvi Sukhdev s/o
					10	Private	Nehari + Khala	0.0499	Gopiram 0.076 Hec Guddi s/o Gopiram 0.015 Hec Mathra Devi w/o Brij Lal Dalip Kumar s/o Brij Lal Narayani Devi d/o Brij Lal B Hi B 0.038 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan Sahiram SBBJ Udoyg Vihar Sriganganagar
					24	Private	Nehari	0.0069	Ankur s/o Sandeep Kumar
					23	Private	Nehari	0.2358	Sayam s/o Sarjeet Kumar Kedish s/o Suresh Kumar B Hi B 1.176 Hec Caste Vishnoi Sa 8 L N P Sriganganagar Khatedar
					22	Private	Nehari	0.0641	
					19	Private	Nehari	0.1457	Sahiram s/o Rawataram 2.360 Hec Moman Maniram Palaram
					18	Private	Nehari	0.1717	Aaduram Ram Kumar s/o
					13	Private	Nehari	0.0942	Gopiram B Hi B 1.600 Hec
					12	Private	Nehari	0.2199	Amar Chand s/o Bhagirath 0.235 Hec Prithvi Sukhdev s/o
					11	Private	Nehari	0.0002	Gopiram 0.076 Hec Guddi s/o Gopiram 0.015 Hec Mathra Devi w/o Brij Lal Dalip Kumar s/o Brij Lal Narayani Devi d/o Brij Lal B Hi B 0.038 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan Sahiram SBBJ Udoyg Vihar Sriganganagar
				5//	22	Private	Nehari + Khala	0.0414	Omprakash s/o Dhnaram Caste Yadav Sa 6 L N P Khatedar
					21	Private	Nehari + Khala	0.2443	Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala Murthin
					20	Private	Nehari	0.1540	
					11	Private Government	Nehari G.M Sadak	0.0380 0.2150	Rohitash s/o Ghadsiram Hi 1/2 Dharampal s/o Ghadsiram 1/2 Hi Com Ahir Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra. Bank Branch Khyaliwala Govt. of Rajasthan
					10	Government	G.M Sadak	0.0250	Govt. of Rajasthan
				6//	25	Private	Nehari	0.0552	Rohitash s/o Ghadsiram Hi 1/2 Dharampal s/o Ghadsiram 1/2 Hi Com Ahir Sa Deh Khatedar
					16	Private	Nehari	0.1869	Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala
					15	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0750 0.1679	Govt. of Rajasthan Rohitash s/o Ghadsiram Hi 1/2 Dharampal s/o Ghadsiram 1/2 Hi Com Ahir Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala
					14	Private	Nehari	0.0198	Rohitash s/o Ghadsiram Hi 1/2 Dharampal s/o Ghadsiram 1/2 Hi Com Ahir Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala
					7	Government	G.M Sadak	0.0130	Govt. of Rajasthan

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						Private	Nehari	0.0318	Rohitash s/o Ghadsiram Hi 1/2 Dharampal s/o Ghadsiram 1/2 Hi Com Ahir Sa Deh Khatedar Rehan MGB Gra Bank Branch Khyaliwala
					6	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.2150 0.0380	
					5	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.1770 0.0750	Govt. of Rajasthan Surendra Kumar Satyaprakash s/o Baburam B Hi B Caste Agarwal Sa G Block Sriganaganagar Khatedar
					4	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0120 0.0391	
				2//	25	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.1770 0.0750	
					24	Government Private	G.M Sadak Nehari	0.0130 0.0217	
			(16) 1 D Choti	46//	3/1	Private	Nehari + Khala	0.0130	Heatram Hansraj s/o Ladhuram B Hi B Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar
					4/1	Private	Nehari + Khala	0.0500	Rajesh Kumar Kiran Kumar s/o Late Shree Omprakash Com Vishnoi Sa Check 1 D Choti Khatedar B Hi B 0.063 Hec
					5/1	Private	Nehari	0.0250	Jagdeesh Jaydeep s/o Late Shree Surjaram B Hi B Guddi Devi Urf Lekhesari w/o Jagdeesh Com Vishnoi Sa Check 1 D Choti Khatedar 0.089 Hec Rehanama Jaydeep s/o Surjaram Rehan SBBJ Bank Kaliyam
					7	Private	Nehari	0.0750	Heatram Hansraj s/o Ladhuram B Hi B Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar
					14	Private	Nehari	0.0250	Rajesh Kumar s/o Late Shree Omprakash Com Vishnoi Sa Check 1 D Choti Khatedar B Hi B 0.253 Hec
					15/2	Private	Nehari	0.0640	Rajesh Kumar s/o Omprakash Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar 0.064 Hec Rehan SSBBJ Bank Kaliya Sriganaganagar
					16/1	Private	Nehari	0.0250	Jagdeesh Jaydeep s/o Late Shree Surjaram B Hi B Guddi Devi Urf Lekhesari w/o Jagdeesh Com Vishnoi Sa Check 1 D Choti Khatedar 0.064 Hec Rehanama Jagdeesh s/o Surjaram Guddi Urf Lekhesari w/o Jagdeesh Rehan SSBBJ Branch Kaliya
				40//	10	Private	Nehari	0.0250	Hemaram Weld Ratiram 2.182 Hec Jagdeesh Weld Hemaram Rehan Panjab Naitonal Bank Branch Nai Dhan Mandi Sriganaganagar 1.265 Hec Ram Singh s/o Kalurma 2.009 Hec Rehan SBBJ Branch Kaliyam Darshana Devi w/o Raisahab 2.009 Hec Caste Vishnoi Ni Gumjal Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin Bhop Singh Weld Kanaram 1.916 Hec Hi Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin Jagdeesh s/o Hetram Hi
					11	Private	Nehari	0.2400	
					12	Private	Nehari	0.1650	
					13	Private	Nehari	0.0130	
					17	Private	Nehari	0.0500	
					18	Private	Nehari	0.2270	
					19	Private	Nehari	0.2400	
					20	Private	Nehari	0.0380	
					22/1	Private	Nehari	0.0380	
					23/1	Private	Nehari	0.0890	
					24/1	Private	Nehari	0.0890	
					25	Private	Nehari	0.0250	
				39//	1	Private	Nehari +	0.0250	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Khala		0.962 Rehan SBBJ Branch
					2	Private	Nehari	0.0130	Kaliyam Murthin Narsiram
					6	Private	Nehari + Khala	0.0500	Vishnu Kumar s/o Manohar Lal Hi 0.963 Hec Com Vishnoi Sa Gumjal Khatedar Rehan SBBJ
					7	Private	Nehari	0.0900	Brnch Kaliyam Murthin
					8	Private	Nehari	0.1260	Rammurti Widow Hanuman
					9	Private	Nehari	0.2400	Kuldeep Weld Hanuman B Hi B
					10	Private	Nehari	0.2530	1.025 Hec Rehanama Rammurti
					11	Private	Nehari	0.0250	And Kuldeep Rehan Panjab
					12	Private	Nehari	0.0380	National Bank Branch
					13	Private	Nehari	0.1770	Sriganganagar Murthin
					14	Private	Nehari	0.2040	Prithviraj Nirmala Devi M/o
					15	Private	Nehari + Khala	0.2400	Shiv Kumar, Maya Devi W/o Shiv Kumar, Sunita Devi, Kamlesh Devi, Manju Devi D/o
					16	Private	Nehari + Khala	0.0130	Shiv Kumar, Ravindra Kumar S/o Shiv Kumar B Hi B 0.341 Hec. Manohar Lal Rajendra Naresh Kumar s/o Ami Chand Rehanama Manohar Lal Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin Rehanama Naresh Kumar 0.341 Hec Rehan SBBJ Branch Sriganganagar Murthin Nirmala Devi Widow Ami Chand Munni Devi Krishana Devi And Bhagwanti Devi Du Ami Chand B Hi B 2.732 Hec Omprakash Sandeep Kumar s/o Botiram Hi 1.025 Hec Banwari Lal 3.073 Hec s/o Jawanaram Rehan SBBJ (ADB Sriganganagar) Hansraj Prithviraj Inderraj Mahendra Surendra s/o Sohan Lal B Hi B 3.073 Rehanama Hansraj Prithviraj Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin Surendra Kumar Sunil Kumar s/o Ramswroop B Hi B 1.025 Hec Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar Ajay Kumar Weld Har Chand 1.908 Hec Kashiram Sahabram s/o Ramrekh 3.073 Hec Hi Sunil Kumar 0.898 Hec s/o Bhopram Vijaypal s/o Ramswroop 1.798 Hec Rehanama Ajay Kumar Vijaypal Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin Indra Devi w/o Aatmaram Amit Kumar s/o Aatmaram Kiran Pooja d/o Aatmaram B Hi B 0.899 Hec Caste Vishnoi Sa Gumjal (Panjab Khatedar)
				38//	1	Private	Nehari	0.0380	Jagdeesh s/o Hetram 0.131 Hec Hemaram Bhupram s/o Kanaram
					2	Private	Nehari	0.0380	And Rampratap s/o Ratiram B Hi B 0.787 Narsi Ram Vishnu Kumar S/o Manohar Lal Hi B Hi B 0.131 Hec Raisahab s/o Kaluram Rammurti Hanuman Kuldeep Weld Hanuman B Hi B 0.093 Hec Ramswaroop s/o Sahiram B Hi B 0.182 Hec Com
					3	Private	Nehari	0.0380	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Vishnoi Ramrekha Sohan Lal Chajjuram s/o Jawanaram B Hi B 0.844 Hec Com Vishnoi Sa Deh Khatedar Rehanama Ramurti And Kuldeep 0.093 Hec Rehan Panjab National Bank Sriganganagar Murthin Rehan Narsi Vishnu Jagdeesh Rehanama SBBJ Bank Kaliya Ram Singh
					4	Private	Nehari	0.0380	Ramswoop s/o Har Chand Smt Sunita w/o Ramswoop B Hi B 4.617 Hec Com Vishnoi Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin
					5	Private	Nehari	0.0380	
					6	Private	Nehari	0.2530	
					7	Private	Nehari	0.2530	
					8	Private	Nehari	0.2530	
					9	Private	Nehari	0.2530	
					10	Private	Nehari	0.2530	
					11	Private	Nehari	0.0130	
					12	Private	Nehari	0.0130	
					13	Private	Nehari	0.0130	
					14	Private	Nehari	0.0130	
					15	Private	Nehari	0.0130	
				37//	1	Private	Nehari + Khala	0.0380	Lal Chand s/o Bidaram Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin
					2	Private	Nehari	0.0380	
					3	Private	Nehari	0.0380	
					4	Private	Nehari	0.0380	Hetram s/o Bidaram And Narendra Kumari w/o Hatram Caste Kumar Sa 1 D Choti Khatedar Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin
					5	Private	Nehari	0.0380	Parshant S/o Ajay Kumar Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar
					6	Private	Nehari	0.2530	
					7	Private	Nehari	0.2530	Hetram s/o Bidaram And Narendra Kumari w/o Hatram Caste Kumar Sa 1 D Choti Khatedar Rehan SBBJ Branch Kaliyam Murthin
					8	Private	Nehari	0.2530	
					9	Private	Nehari	0.2530	
					10	Private	Nehari + Khala	0.2530	
					11	Private	Nehari + Khala	0.0130	
					12	Private	Nehari	0.0130	
					13	Private	Nehari	0.0130	
					14	Private	Nehari	0.0130	
					15	Private	Nehari	0.0130	Parshant S/o Ajay Kumar Caste Vishnoi Sa Deh Khatedar
				36//	1/2	Private	Nehari	0.0380	Mahaveer Prasad 0.177 Hec Prithviraj 0.149 Hec Satpal 1.702 Hec s/o Hariram Caste Brahman Badriram 0.033 Hec Omprakash 0.033 Hec s/o Mansaram Rajendra s/o Gopalram 0.228 Hec Com Vishnoi Rajpal 0.173 Hec Roopram Urf Gopiram 0.173 Hec s/o Sukhdev Singh Hanuman Sharwanram s/o Duli Chand B Hi B 0.013 Hec Kali Devi W/o Gopal Ram 0.025 Hec. Chanan Singh Weld Sewroop Singh 0.773 Hec Kumar Sa Deh Lalita Sidana w/o
					2/2	Private	Nehari	0.0500	

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
									Roop Sidana 1.436 Hec Roop Chand Sidana (H U F) s/o Sohan Lal Sidana 1.290 Hec Caste Arora Ni 67 N Block Sriganganagar Padmavati w/o Satyaprakash 0.575 Hec Rajni w/o Pawan Kumar 0.400 Hec Suman w/o Vaidprakash 0.975 Hec Caste Agarwal Ni Sriganganagar Khatedar Haktayag Se- Hanuman Prasad Sharwanram s/o Duli Chand Mukesh Kumar s/o Ramkaran B Hi B 1.017 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					3/2	Private	G.M Residencial	0.0380	Lalita Sidana w/o Roop Sidana Caste Arora Ni 67 N Block Sriganganagar
					4	Private	Nehari	0.0380	Mahaveer Prasad 0.177 Hec Prithviraj 0.149 Hec Satpal 1.702 Hec s/o Hariram Caste Brahman Badriram 0.033 Hec Omprakash 0.033 Hec s/o Mansaram Rajendra s/o Gopalram 0.253 Hec Com Vishnoi Rajpal 0.173 Hec Roopram Urf Gopiram 0.173 Hec s/o Sukhdev Singh Hanuman Sharwanram s/o Duli Chand B Hi B 0.013 Hec
					5	Private	Nehari	0.0380	
					6	Private	Nehari	0.2400	
					7/2	Private	Nehari	0.0750	
					8/1	Private	Nehari	0.0630	
					9/2	Private	Nehari	0.0500	
					10	Private	Nehari	0.0250	
					13/2	Private	Nehari	0.0130	Chanan Singh Weld Sewroop Singh 0.773 Hec Kumar Sa Deh Lalita Sidana w/o Roop Sidana 1.436 Hec Roop Chand Sidana (H U F) s/o Sohan Lal Sidana 1.290 Hec Caste Arora Ni 67 N Block Sriganganagar Padmawati w/o Satyaprakash 0.575 Hec Rajni w/o Pawan Kumar 0.400 Hec Suman w/o Vaidprakash 0.975 Hec Caste Agarwal Ni Ganganagar Khatedar Haktayag Se- Hanuman Prasad Sharwanram s/o Duli Chand Mukesh Kumar s/o Ramkaran B Hi B 1.017 Hec Caste Kumar Sa Deh Khatedar
					15/2	Private	Nehari	0.0130	
				23//	20	Private	Nehari	0.0250	Narendra Kumari w/o Hetram Caste Kumar Sa Deh Khatedar Rehan-SBBJ Branch Kaliyam Murthin
					21	Private	Nehari	0.2150	Jageet Singh Balvinderjeet Singh s/o Hazur Singh Com Kumar B Hi B Sa Deh Khatedar
					22	Private	Nehari	0.0380	
				24//	1	Irrigation Deptt. Government	Nehar Aabadi	0.1900 0.0250	Govt. of Rajasthan Govt. of Rajasthan
					2	Irrigation Deptt. Government	Nehar Aabadi	0.1900 0.0130	Govt. of Rajasthan Govt. of Rajasthan
					3	Irrigation Deptt.	Nehar	0.0380	Govt. of Rajasthan
					7	Government	Aabadi	0.0380	Govt. of Rajasthan

S. No	Name of the District	Name of the taluka	Name of Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in hectare	Name of the Land owner/ Interested Persons
				Murba No.	Kila No.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					8	Government	Aabadi	0.2150	Govt. of Rajasthan
					9	Government	Aabadi	0.2150	Govt. of Rajasthan
					10	Government	Aabadi	0.0250	Govt. of Rajasthan
					12	Government	Aabadi	0.0250	Govt. of Rajasthan
					13	Government	Aabadi	0.2400	Govt. of Rajasthan
					14	Government	Aabadi	0.2150	Govt. of Rajasthan
					15	Government	Aabadi	0.0250	Govt. of Rajasthan
					16	Government	Aabadi	0.2400	Govt. of Rajasthan
					17	Government	Aabadi	0.2400	Govt. of Rajasthan
					18	Government	Aabadi	0.0380	Govt. of Rajasthan
					24	Government	Aabadi	0.0380	Govt. of Rajasthan
					25	Government	Aabadi	0.2400	Govt. of Rajasthan
				25//	5	Irriagation Deptt.	Nehar	0.0250	Govt. of Rajasthan
				5//	20	Government	Aabadi	0.0520	Govt. of Rajasthan
					21	Government	Aabadi	0.0250	Govt. of Rajasthan
					22	Irriagation Deptt.	Nehar	0.0520	Govt. of Rajasthan
				4//	13	Government	Aabadi	0.1020	Govt. of Rajasthan
					14	Government	Aabadi	0.1400	Govt. of Rajasthan
					15	Government	Aabadi	0.0380	Govt. of Rajasthan
					16	Government	Aabadi	0.2400	Govt. of Rajasthan
					17	Government	Aabadi	0.1650	Govt. of Rajasthan
					18	Government	Aabadi	0.0130	Govt. of Rajasthan
					24	Government	Aabadi	0.0130	Govt. of Rajasthan
					25	Government Irrigation Deptt.	Aabadi Nehar	0.0380 0.1270	Govt. of Rajasthan Govt. of Rajasthan

[F.No.RW/NH-37014/05/2011-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director